



**राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary**

*Published by Authority*

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019

Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941—August 27, 2019

**भाग 6 (क)**

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT**

**RAJASTHAN, JAIPUR**

**ORDER**

**Jaipur, August 14, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/7323.** In exercise of powers conferrd under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Council Beawar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Beawar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Governement.**

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर  
प्रफोर्मा “क”

वार्ड सं.	विवरण
1	अजमेर रोड (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग) पर स्नेहम् ओ.के. प्लस प्लेटस से उत्तर की ओर चलते हुए नारायण आश्रम, बर्फ फैक्ट्री, रिको, बाईपास, ब्यावर खास को जाने वाले तिराहे तक वहां से पश्चिम मे मुडकर रेल्वे लाईन के सहारे—सहारे दक्षिण दिशा मे चलकर डी.एफ.सी लाईन के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए तोमर विहार कोलोनी में राजेन्द्र ग्वाला के मकान (डी.एफ.सी की दीवार के पास) तक वहां से पूर्व मुडकर सड़के के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए राजेन्द्र तवर के मकान तक वहां से सीधे बिजली की लाईन के नीचे होते हुए पुनः अजमेर रोड (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग) पर स्नेहम् ओ.के प्लस प्लेटस तक। (रिको क्षेत्र, कालीमाता कोलोनी, मुंशी कोलोनी, लेखा नगर, महेश नगर, नृसिंहपुरा, सुराणा नगर इत्यादि)
2	अजमेर रोड (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग) विश्राम जी कुमावत के मकान से उत्तर चलकर सड़क के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए (अमरकुंज, पण्डित मोटर्स, दादीधाम) नवकार रेजीडेन्सी के पीछे हंस कॉम्प्लेक्स में महालक्ष्मी गैस ऐजेन्सी के पास वाली गली में पश्चिम की ओर मुडकर बिजली के लाईन के नीचे सड़क के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए अजय कुमार अग्रवाल (मॉ. वैष्णो देवी कोलोनी) के मकान होते हुए मोहनजी सैन का मकान से डी.एफ.सी रेल लाईन की दीवार तक वहां से दक्षिण मुडकर डी.एफ.सी रेल लाईन के पास नदी के कोने तक वहां से पूर्व मुडकर नदी के सहारे—सहारे (हाजी मोहम्मद तालिब अली प्लॉट नं. 14 मोहन नगर के पिछले हिस्से) चलते हुए सुशील जी घोसी के किराणा की दुकान व मकान तक वहां से दयानगर की पुलिया कोस करके नदी के सहारे—सहारे उत्तरी पूर्वी भाग को शामिल

	<p>करते हुए छावनी लिंक रोड पुलिया तक वहां से ज्ञानचन्द सिंघल नगर की पुलिया अर्थात् नदी के सहारे पूर्वी भाग लेकर रामेश्वरजी गहलोत के मकान को शामिल करते हुए एवं उत्तरी भाग को शामिल करते हुए रामनिवास यादव के मकान से उत्तर की ओर मुड़ते हुए महेन्द्र यादव के मकान होते हुए हरि निवास के सामने से पूर्व की ओर मुड़ते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए मैना पिसाई केन्द्र (आटा की चक्की) होते हुए पुनः अजमेर रोड (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग) पर विश्राम जी कुमावत के मकान तक।          (दया नगर, हंस नगर, मोतीपुरा बाड़ीया, ज्ञानचन्द सिंघल नगर, मॉ वैष्णों देवी कोलोनी, मोहन नगर इत्यादि)</p>
3	<p>भगत चौराहे (गुरु गोविन्दसिंह मार्ग) पर भगत पान भण्डार से पूर्व दिशा में चलकर मोहम्मद अली स्कूल तक वहां सतपुलिया होकर शंकर पैलेस होटल तक वहां से पश्चिम मुड़कर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए रमेश गहलोत के मकान तक वहां से दक्षिण मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए हरभजन सिंह यादव के मकान से पश्चिम मुड़कर दक्षिणी भाग को लेते हुए शंभू यादव के मकान से मंदिर को शामिल करते हुए नदी तक वहां से नदी के सहारे-सहारे छावनी नदी के कोने तक छावनी लिंक रोड पर कुन्दनमल जी वैलिंग के कारखाने से पश्चिम की ओर चलते हुए पुराने सदर थाने के सहारे-सहारे कनक फैन्सी स्टोर प्रमोद सांखला की दुकान से दक्षिण की ओर चलते हुए सड़क के पूर्वी भाग को लेते हुए गोदाम गली के कोने पर शेख जनरल स्टोर को शामिल करते हुए नवरंग नगर, जय विलनिक को लेकर डॉ शमाशील गुप्त के मकान से खेतपालिया गार्डन, लोहार बस्ती, दरगाह से छावनी गर्ल्स स्कूल होते हुए पुनः भगत चौराहे (गुरु गोविन्दसिंह मार्ग) पर भगत पान भण्डार तक।          (मोतीपुरा बाड़ीया, कोर्ट, थाना कम्पाउण्ड, नवरंग नगर, गोदाम गली, गाडोतिया लोहार बस्ती आदि)</p>
4	<p>छावनी पावर हाउस के सामने भैरूलाल साहू के मकान से उत्तर दिशा में फायर स्टेशन के सामने वाले भाग को लेकर रेल्वे अण्डर पास से बाहर निकलकर पूर्वी भाग को लेते हुए (ज्वाला माता ढूंगरी मार्ग का पूर्वी भाग) शिफा गारमेन्ट के सामने शनि मंदिर जोशी निवास की गली में पश्चिम में मुड़कर सड़क के उत्तरी भाग को लेते हुए श्री महादेव मंदिर तक वहां से गली में (सामने वाला हिस्सा) उत्तर मुड़कर गली के पूर्वी भाग को लेकर मंगलसिंह रावत के मकान तक वहां से नीचे नदी की रपट को कोसा करके पूर्व मुड़कर सड़क के सहारे (जयमातादी प्रोपर्टी) ढूंगरी रोड (ज्वाला माता ढूंगरी मार्ग) तक वहां से छावनी शमशान घाट से पूर्वी दिशा में चलते हुए रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे रेल्वे फाटक चोकी संख्या 23 एवं जलालशाह बाबा की दरगाह तक नदी के सहारे-सहारे मालियान पंचायत भवन के सामने तेजाजी मंदिर चौक से छावनी घोसी मोहल्ला सम्पूर्ण एवं शेखावत विलनिक की सम्पूर्ण गलियों को शामिल करते हुए जय महाकाल मंदिर होते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए दक्षिण में मुड़कर पुराने सदर थाने के पीछे की दीवार के सामने अतुल जैन के मकान को शामिल कर पुनः भैरूलाल साहू के मकान तक।          (छावनी समस्त गलियां, घोसी मोहल्ला, ईदगाह, रेल्वे फाटक आदि)</p>
5	<p>छावनी रोड (शहीद भगत सिंह मार्ग) पर अजगर सोप भवन (श्री राधाकृष्ण शर्मा) से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग को लेते हुए पुराना जय विलनिक नर्सिंग होम तक वहां से पूर्व मुड़कर सड़क उत्तरी भाग को शामिल करते हुए पश्चिम चिकित्सालय होकर जैन कोलोनी, पावर हाउस, फायर स्टेशन, सांसी बस्ती के पास डी.एफ.सी की दीवार तक वहां से डी.एफ.सी की दीवार के सहारे चलकर दक्षिण में मोहम्मद अली आई.टी.आई व छात्रावास की दीवार तक वहां से पूर्व आई.टी.आई की दीवार के सहारे अमृतकौर अस्पताल मार्ग (श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग) शनि मंदिर के सामने अशोक जूस सेन्टर तक (अमृतकौर अस्पताल सम्पूर्ण) वहां से पूर्व चलते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए बन्द गली से दक्षिण में चलकर डॉ दिनेश के मकान से पूर्वी भाग को लेते हुए श्यामसुन्दर अग्रवाल के मकान तक वहां से पूर्व चलते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए मीराबाई मंदिर से छावनी रोड (शहीद भगत सिंह मार्ग) पर पुनः अजगर सोप भवन तक।          (चम्पा नगर, अमृतकौर अस्पताल, जैन कोलोनी, सांसी बस्ती आदि)</p>

6	<p>छावनी अण्डर पास पर ईसाईयों के कब्रिस्तान से उत्तर की ओर माताजी की डूँगरी (ज्याला माता डूँगरी मार्ग) को जाने वाली सड़क के पश्चिमी भाग को लेते हुए कच्छावा कोलोनी, कैलाश कोलोनी को समिलित करते हुए नैनूराम साहू के मकान तक वहां से पश्चिम मुड़कर सड़क के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए घनशयाम जी माली (मास्टर साहब) के मकान तक वहां से उत्तर की ओर मुड़ते हुए गोतम पहलवान के मकान तक (शिव मंदिर को शामिल करते हुए) वहां से पश्चिम मुड़कर नदी के दक्षिणी भाग को लेते हुए अर्जुन गहलोत के खेत तक (नून्द्री मेन्द्रातान के शमशान घाट के पीछे) वहां दक्षिणी पूर्वी चलते हुए कच्चे रास्ते से पूर्वी भाग को शामिल करते हुए खारचिया कुएं तक वहां से रेल्वे लाईन की ब्राउण्डी पर मंगल सिंह के मकान तक वहां से उत्तर की ओर मुड़ते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए पानी की टंकी को शामिल करते हुए पुनः ईसाईयों के कब्रिस्तान तक। (कच्छावा कोलोनी, कैलाश कोलोनी)</p>
7	<p>कंचन पेट्रोल पम्प से पश्चिम की ओर चलते हुए सड़क के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए बालाजी मंदिर, माल गोदाम चुंगीनाका को शामिल करते हुए रेल्वे अण्डरपास होकर रेल्वे लाईन के सहारे—सहारे पश्चिमी दिशा में चलकर भंवरलाल पिडियार के मकान को लेते हुए रेल्वे की गली से उत्तर की ओर मुड़कर आर्शीवाद सिटी की दीवार के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए दीपू काठात के मकान से रेल्वे की दीवार के सहारे निर्माण निरीक्षक रेल्वे कोलोनी क्वार्टर्स की दीवार के सहारे—सहारे बाहर निकलकर (रेल्वे क्वार्टर्स समिलित नहीं) मिल रोड की मुख्य सड़क तक (आर.के टेलर्स की दुकान तक) वहां से पश्चिम की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए (लक्ष्मी मिल की दीवार के सहारे—सहारे आर.के कोलोनी) कर्बला मार्ग पर केसाराम रल के मकान को शामिल करते हुए प्रेम काठात के मकान से फैयाज खान पुत्र रमजान खान के मकान को शामिल कर कर्बला मार्ग की नदी की पुलिया तक वहां से नदी के सहारे—सहारे नून्द्री की रपट तक वहां से नदी के सहारे चलकर नून्द्री रोड पर बेतुल बानो संरपच के शिलालेख के पूर्वी भाग से पश्चिम के रास्ते नदी के सहारे—सहारे वालिमकी समाज के शमशान घाट को शामिल करते हुए) भैरूजी के मंदिर तक वहां से पोखरजी माली के खेत को शामिल करते हुए नून्द्री शमशान घाट तक यहां से दक्षिणी पूर्वी मुड़कर कच्चे रास्ते से खारचिया कुओं को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए मोड़ूराम सांखला के खेत तक वहां से रेल्वे लाईन को लम्बवट्ट कोस (पार) करते हुए मोहम्मद अली आई.टीआई व छात्रावास की सरहद को लेते हुए अमृतकौर हॉस्पीटल मार्ग (श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग) पर (शनिदेव मंदिर के सामने) हरिओम बेकरी के कोने से दक्षिणी पूर्वी दिशा में मुड़कर सड़क के उत्तरी पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए पुनः कंचन पेट्रोल पम्प तक। (रेल्वे स्टेशन माल गोदाम मार्ग, गुरुद्वारा, आर.के. कोलोनी, श्यामगंज इत्यादि)</p>
8	<p>चांग चितार रोड पर नाथू का बाड़िया खेरातीलाल पंजाबी के नोहरे के कोने से पश्चिम चक्कर सड़क के उत्तरी भाग को लेकर राठी गार्डन होते हुए मंगलेश्वर महादेव के मंदिर तक वहां से डी.एफ.सी ट्रेक के सहारे—सहारे पश्चिम की ओर चलते हुए गहलोत कोलोनी अण्डर पास को लेते हुए डी.एफ.सी ट्रेक को लेते हुए नून्द्री नदी पर स्थित पुलिया पर भाटियों के कुएं तक वहां से उत्तर मुड़कर नदी को शामिल करते हुए आर्मी कोलोनी के सामने स्थित नदी को लेते हुए कर्बला पुलिया से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए मिट्टू जी मेहरात के मकान से राजूजी का बाड़िया होते हुए रमजान खान पूर्व मंत्री के मकान होते हुए आर्शीवाद सिटी को शामिल करते हुए नगर परिषद, ब्यावर की अनुसूचित जाति की तीनों दुकानों तक वहां से दक्षिण मुड़कर उ.प. रेल्वे निर्माण निरीक्षक रेल्वे कोलोनी के क्वाटर के शामिल करते हुए रेल्वे की कोलोनी के सहारे—सहारे रेल्वे लाईन के सहारे—सहारे फाटक पर आकर अण्डर पास के सहारे नाले तक वहां से दक्षिण में चलकर दिग्म्बर जैन समाज के नोहरे की दीवार के पश्चिमी भाग में मदन निवास श्री सूरज पुत्र जगदीश प्रसाद जोशी के मकान को लेते हुए पुनः चांग चितार रोड पर नाथू का बाड़िया खेरातीलाल पंजाबी के नोहरे तक। (नाथू का बाड़िया, राठी गार्डन, गहलोत कोलोनी)</p>

9	<p>सिटी सिनेमा से पश्चिम चलकर श्यामजी कृष्ण वर्मा मार्ग के दक्षिणी भाग को लेते हुये आगे मील रोड पर लाज हवेली (गुरु रामदास जी सोसायटी पुराना राजपुताना प्रेस) के उत्तरी पश्चिमी कोने तक वहां से दक्षिण में राजपुताना प्रेस की सीमा होते हुये दिगम्बर जैन पंचायत की दीवार के नाले के सहारे –सहारे चांगचितार रोड पर सरावगीयान खेत के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक वहां से पूर्व चलकर चांगचितार रोड के उत्तर भाग को लेते हुये परमानन्दजी फतनानी के मकान तक वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग को लेते हुये सेंदडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) पर नारायण जी तेली के मकान तक वहां से उत्तर मुड़कर सेंदडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) के पश्चिमी भाग को लेते विपिन अग्रवाल की दुकान तक वहां से पूर्व चलकर फव्वारो को शामिल करते हुये गांधी जी की मूर्ति तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग को लेते हुये सिटी सिनेमा हाँल तक।</p> <p>(किशनगंज, चांग चितार रोड, महावीर गंज गली नं. 03, श्यामजी कृष्ण वर्मा मार्ग, सेंदडा रोड, सिटी सिनेमा मार्ग)</p>
10	<p>नगर परिषद के उत्तरी पूर्वी कोने से दक्षिण चलकर दरियाव जी के मंदिर के पूर्वी दक्षिणी कोने तक वहां से पश्चिम मुड़कर उत्तरी भाग को सम्मिलित करते हुये आगे गिरजाघर मार्ग चलते हुये चांगगेट (महर्षि वाल्मीकी मार्ग) के मध्य तक वहां से उत्तर चलकर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 08 के पूर्वी भाग को लेते हुये विनोद होटल तक वहां से पूर्व चलकर राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिणी भाग को लेते हुये नगर परिषद के उत्तरी पूर्वी कोने तक।</p> <p>(चूनपच मौहल्ला, मुस्लिम मुसाफिर खाना, हरिजन बस्ती, गिरजाघर, मिशन कॉलोनी, चांग गेट मिशन कॉलोनी, हाईवे कॉलोनी आदि)</p>
11	<p>भगत पान चौराहे (भगत सिंह चौराहा) पर नारायण दास लोहिया पेट्रोल पंप से दक्षिण चलकर सड़क के पश्चिमी भाग को लेते हुये जैन फ्लोर मिल तक वहां से पश्चिम चलकर पिनारान मार्ग के उत्तरी भाग को लेते हुये राजेन्द्र ऑटो सेंटर तक वहां से उत्तर चलकर पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुये लायंस गार्डन के उत्तर पश्चिमी कोने तक वहां से रोड क्रास कर पश्चिम चलते हुये उत्तर भाग को सम्मिलित करते हुये दीन दयाल सर्कल (उँट फव्वारा) तक वहां से उत्तर मुड़कर शनि मंदिर तक वहां से पूर्व चलकर हनुमान धर्मशाला के दक्षिणी पूर्वी कोने तक वहां से दक्षिण चलकर अशोक गोयल के मकान (तुलसी भवन 1/63) तक वहां से पूर्व चलकर दक्षिणी भाग को लेते हुये धनवन्तरी औषधालय राकेश शर्मा के मकान तक वहां से दक्षिण चलकर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुये भगत चौराहे (शहीद भगतसिंह मार्ग) पर लोहिया पेट्रोल पंप तक।</p> <p>(डिग्गी मौहल्ला, पीनारान मार्ग, मिशन कम्पाण्ड, चम्पानगर गली नं. 01 आशिक गली नं. 02 आदि।)</p>
12	<p>अजमेर रोड (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग) सतपुलिया (महात्मा ज्योतिबा फूले तिराहा) से दक्षिण चलकर नदी के किनारे–किनारे होते हुए पुराना मसूदा मार्ग नदी (मसाणी नदी) की पुलिया तक वहां से पश्चिम मुड़कर सड़क के उत्तरी भाग को लेते हुए सूरजपोल गेट (सुरलीधर भगवान तिराहा) तक वहां से उत्तर मुड़कर शहर पनाह होते हुए पूर्वी भाग को लेते हुए डबगरान गली की सीध तक, वहां से पश्चिम मुड़कर डबगरान गली व गोपालजी मौहल्ला के उत्तरी भाग को लेते हुए फतहपुरिया चौपड़ तक वहां से उत्तर चलकर पूर्वी भाग को लेते हुए अजमेरी गेट तक वहां से पश्चिम चलकर उत्तरी भाग को लेते हुए धीयाजी के मकान तक वहां से पश्चिम चलकर उत्तर भाग को सम्मिलित करते हुए गोयल के मकान (डिग्गी स्कूल चौराहा) तक वहां से उत्तर चलकर पूर्वी भाग को लेते हुए होटल विक्रांत को सम्मिलित करते हुए तांगा स्टैण्ड (पुराना बस स्टैण्ड) तक वहां पूर्व चलकर दक्षिणी भाग नवीन बस स्टैण्ड को सम्मिलित करते हुए सतपुलिया (महात्मा ज्योतिबा फूले तिराहा) तक।</p> <p>(फतेहपुरिया बगीची, बांके बिहारी लाल की बगीची, बालाजी बगीची, पंचायत नसीया, गोपाल जी मौहल्ला, भैरूजी गली, मैमसाब गली, अग्रसेन बाजार आंशिक, धी गली, लालान गली आंशिक, अमला मार्ग, पुराना बस स्टैण्ड आदि)</p>
13	महादेव जी की छत्री पर ललित स्टाक की दुकान से पूर्व चलकर ठठेरा गली के दक्षिणी भाग

	<p>को लेते हुये छीतर मिस्त्री की दुकान तक यहां से दक्षिण मुड़कर माधोपुरिया गली के पश्चिमी भाग को लेते हुए उदयसिंह जी जैन के मकान तक यहां से पूर्व मुड़कर दक्षिणी भाग में जगदीश प्रसाद/रामप्रसाद जी सोनी के मकान को शामिल करते हुए श्यामलाल बंसल (मधु मुनक्का वाले) के मकान तक यहां उत्तर मुड़कर सूरजपोल पुलिस चौकी तक यहां से परकोटे की दीवार के सहारे—सहारे पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए रामनाथ बादशाह के मकान होते हुए श्याम सुन्दर जी बरतन वाले के मकान होते हुए, गोपाल कृष्ण बंसल के मकान तक वहां से आगे चलकर बालाजी के मंदिर तक यहां से पूर्व में मुड़कर गली नं. 1 के मकान को शामिल कर तेलियान पंचायत भवन तक यहां से गली नं. 2 में मुड़कर सड़क के उत्तरी भाग को लेते हुए ताउर रहमान के मकान तक यहां से पुनः बालाजी चौक में आकर दक्षिणी पश्चिम में मुड़कर पश्चिमी भाग को लेते हुए पुखराज जी (आसरवा) तेली के मकान को शामिल करते हुए रामदेव जी तेजी के मकान होते हुए नवी जी के मकान तक यहां से दक्षिण मुड़कर पश्चिमी भाग को लेते हुए पूर्व पार्षद बुधनाथ जी के मकान को शामिल कर आगे चलते हुए भागीरथ जी तेली के मकान को शामिल कर दक्षिण मुड़कर पश्चिमी भाग को लेते हुए सत्यनारायण/चांदमल साहू के मकान तक यहां से पश्चिम मुड़कर उत्तरी भाग को लेते हुए राजकीय उ.प्रा.वि. बिचडली मोहल्ला को शामिल करते हुए यहां उत्तर की ओर मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए दुगड मार्केट को शामिल करते हुए भेरूजी के मंदिर को शामिल करते हुए भारत माता सर्किल के आगे चलकर बालूराम/बोदूराम की दुकान को शामिल कर पुनः ललित सटाक की दुकान तक। (माधोपुरिया गली आशिक, श्यामसुन्दर गली, खाती गली, गुजरान हथाई गली, कुन्दन भवन गली, सुनारान गली, विनोदीलाल गली, मस्जिद गली महावीर बाजार 01, 02 आंशिक, अग्रसेन बाजार आशिक तीन, आदि)</p>
14	<p>सूरजपोल गेट से उत्तर चलकर शहर पनाह होते हुए पश्चिम भाग को लेते हुए डबगरान गली में शोभागजी खटनाल के मकान तक वहां से पश्चिम मुड़कर डबगरान गली व गोपालजी मोहल्ला के दक्षिणी भाग को लेते हुए पुराने पंजाब नेशनल बैंक के उत्तरी—पश्चिमी कोने तक, वहां से उत्तर चलकर पश्चिम भाग को लेते हुए के.सी. डोसी के ऑफिस (अजमेरी गेट) तक वहां से पश्चिम चलकर दक्षिणी भाग को लेते हुए डाक्टर महेश गोयल के मकान तक वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग को लेते हुए नवल किशोर गोयल के मकान तक वहां से पश्चिम मुड़कर डी.पी. अग्रवाल के मकान को लेते हुए गोविन्द नारायण माथुर के मकान तक वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग को लेते हुए गुलाब जी माली की दुकान, श्रद्धानन्द बाजार तक वहां से पूरब मुड़कर उत्तरी भाग को लेते हुए रामनिवास सराफ की दुकान तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिम भाग को लेते हुए महादेव जी की छतरी के पास जगदीश प्रसाद झाईवर के मकान तक वहां पूरब चलकर कल्याण मल भंवरलाल की दुकान वाले हिस्से को लेते हुए रामचरण हलवाई की दुकान (ठठेरा गली) के दक्षिणी पूर्वी कोने तक वहां से दक्षिण मुड़कर आगे चांदमल लौहिया गली (माधोपुरिया गली) के उत्तरी भाग को लेते हुए शहर पनाह तक वहां से सूरजपोल गेट तक (पुलिस क्वाटर्स सम्मिलित नहीं) (डबगरान गली, गोपाल जी मौहल्ला मंदिर मार्ग, पुरानी सिनेमा गली, दर्जी गली, सराफान गली, डिग्गी मौहल्ला गली, 04 व 05 आंशिक, पुरानी सब्जी गली, श्रद्धानन्द बाजार आंशिक, माधोपुरिया गली आंशिक, मालियान गली नं.01,02, शीतला माता गली, नृसिंह गली आदि)</p>
15	<p>पण्डित मार्केट के उत्तर पश्चिमी कोने से पूर्व चलकर दक्षिणी भाग को लेते हुये दाउलाल मास्टर के मकान पिनारान मार्ग पर वहां से दक्षिण मुड़कर पश्चिमी भाग को लेते हुये पिपलिया चौराहे पर बालाजी मंदिर तक वहां से पश्चिम चलकर उत्तरी भाग को लेते हुये बाजार पुराना राठी अस्पताल तक, वहां से उत्तर चलकर पूर्वी भाग को लेते हुये पण्डित मार्केट तक। (पीनारान मार्ग आंशिक, सरावगीयान गली, छीपान छोटा व बड़ा बास, दौलतराम पॉल, श्रद्धानन्द मार्ग 04,, खजांची गली, कालान पॉल, शांति जैन स्कुल मार्ग, गंगा बाई सफाखाना मार्ग, लौहारान मार्ग आंशिक आदि)</p>
16	<p>लोहारान चौपड (स्वतन्त्रता सैनानी रामनिवास शर्मा स्ट्रीट) से पश्चिम मुड़कर श्रद्धानन्द बाजार</p>

	<p>के उत्तरी भाग को लेते हुये बैंक नाला, हेडा बिल्डिंग तक वहां से उत्तर में बैंक नाला, कसाबान सड़क के पूर्वी भाग को लेते हुये कसाबान चौराहा तक वहां से पूर्व की तरफ मुड़कर लाल साहब मंदिर मार्ग के दक्षिणी भाग को लेते हुये डिग्गी पिनारान चौपड़ फकरुद्दीन के मकान तक वहां से दक्षिण की तरफ मुड़कर रंगमहल स्कूल मार्ग होते हुए लोहारान सड़क के पश्चिमी भाग को लेते हुये लोहारान चौपड़ (पं. बृजमोहन लाल शर्मा मार्ग) पर लकड़ी पान वाले तक (लौहारान चौपड़)।</p> <p>(श्रृङ्खानन्द बाजार 03, बैंक नला मार्ग, जामा मस्जिद गली, बैरवा गली, रंगमहल मार्ग, आदि)</p>
17	<p>चांगगेट (महर्षि वाल्मीकी मार्ग) से उत्तर पूर्व चलकर गिरजाघर व लालसाहब मंदिर के दक्षिणी भाग को लेते हुये कसाबान नला मोहल्ला के उत्तर पूर्वी कोने तक वहां से दक्षिण मुड़कर पश्चिम भाग को लेते हुये श्रृङ्खानन्द बाजार में मिश्रीलाल लोढ़ा के मकान तक वहां से पूर्व चलकर दक्षिण भाग को लेते हुये लोहारान चौपड़ (स्वतन्त्रता सेनानी रामनिवास शर्मा स्ट्रीट) के उत्तरी पूर्वी कोने पर ताराचंद हलवाई की दुकान तक वहां से दक्षिण चलकर पश्चिमी भाग को लेते हुये सोमानी के मकान तक वहां से पश्चिम चलकर गोदावरी स्कूल गली होते हुए उत्तरी भाग को लेते हुये बाजारी गली के उत्तरी पूर्वी कोने तक वहां से दक्षिण चलकर पश्चिम भाग को लेते हुये औड़ान चौक के दक्षिणी पूर्वी कोने तक वहा से मिशन गल्फ स्कूल व गणेश मंदिर (लाटा जी मकान होते हुए) उत्तर पश्चिम चलते हुए चांगगेट तक।</p> <p>(कसाबान, दो भाई बीड़ी मार्ग, कसाबान कुआं, श्रृङ्खानन्द मार्ग 02, मुकुट पार्क, कोठी चौक गली 01 व 02)</p>
18	<p>शहीद बाल विहार पार्क उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण चलकर वेर्स्ट पेटेन्ट प्रेस मार्ग होते हुए नन्दराम जी भाट के मकान तक वहां से दक्षिण चलकर टोडरमल के मकान तक वहां से पूर्व मुड़कर शाहपुरा मालियान मंदिर मार्ग के उत्तरी भाग को लेते हुये कृष्णा विलनिक (मिश्रीलाल शर्मा के मकान) तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग को लेते हुये कानजी पनजी गली में बागड़ी के मकान तक वहां से पूर्व मुड़कर उत्तरी भाग को लेते हुये डॉ० गहलोत के मकान तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग को लेते हुये टीकमचन्द/दौलतराम के मकान तक वहां से पश्चिम चलकर दक्षिण भाग को लेते हुये औड़ानचौक मार्ग के उत्तर पश्चिमी कोने पर मंदिर तक वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग को लेते हुये मांगीलाल शर्मा के मकान तक वहां से दक्षिण चलकर दक्षिणी भाग को लेते हुये शहीद बाल विहार पार्क तक।</p> <p>(भांभीयान शाहपुरा मो., भांभीयान शाहपुरा मंदिर मार्ग, कानजी पनजी गली, सनातन धर्म स्कूल मार्ग, दुर्गाचौक, औड़ान चौक, जोशी मो., धोबी गली, सांखला गली, हेडा गली, आर्य समाज गली आदि)</p>
19	<p>मालियान चौपड़ (नाहर कॉम्प्लेक्स) से पूर्व चलकर उत्तरी भाग को लेते हुये तेलियान चौपड़ के दक्षिणी पूर्वी कोने तक वहां से उत्तर चलकर बाजार के पश्चिमी भाग को लेते हुये पांचबत्ती के उत्तरी पूर्वी कोने तक वहां से पश्चिम चलकर दक्षिणी भाग को लेते हुये तेजमल हलवाई की दुकान तक वहां से दक्षिण मुड़कर पूर्वी भाग को लेते हुये पीपलिया चौराहे पर लाल जी नाई की दुकान तक, वहां से पश्चिम चलकर दक्षिण भाग को लेते हुये सनातन स्कूल के उत्तर पश्चिमी कोने तक वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग को लेते हुये नाहर कॉम्प्लेक्स तक।</p> <p>(कांस्टिया गली, नया बास मार्ग, ढाबा गली, चरखी गली, रायली कम्पाउण्ड गली, महामन्दिर गली, शांति जैन स्कूल मार्ग, सनातन स्कूल मार्ग आंशिक, आदि)</p>
20	<p>नेहरू गेट से पूर्व चलकर भीकमचन्द नागौरा के तेल गोदाम तक वहां से उत्तर मुड़कर पश्चिम भाग को लेते हुये रेगरान पार्क के उत्तरी पूर्वी कोने तक वहां से उत्तर चलकर रामस्वरूप त्रिलोकचन्द के मकान होते हुये रेगरान छोटा बास होली चौक तक वहां से पश्चिम चलकर शीतला माता मंदिर को शामिल करते हुये दक्षिण भाग को लेते हुये धनजी मिस्त्री के मकान तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुये खारिया कुंआ मार्ग पर व्यास जी के मकान तक वहां से पूर्व चलकर उत्तरी भाग को लेते हुये मिट्ठनलाल गिरदारवर गली तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग को लेते हुये कल्याणमल भंडारी के मकान तक वहा से पश्चिम चलकर दक्षिणी भाग को लेते हुये शंकरलाल के मकान, मालियान चौराहे तक वहां से उत्तर चलकर कानजी पनजी गली श्री मोहनलाल के मकान तक वहां से पश्चिम चलकर</p>

	दक्षिणी भाग को लेते हुये मालियान मंदिर के पीछे वाले भाग तक वहां से पश्चिम चलकर दक्षिणी भाग को लेते हुये गिब्सन हॉस्टल के पास कचरा डिपो तक, वहां से दक्षिण मुडकर वेस्ट पेटेन्ट प्रेस की सीमा होते हुये (शहरपनाह) नेहरूगेट तक। (रेगरान छोटा बास, स्कुल गली, शीतला माता मंदिर गली, गिरदावर गली, श्रीचंद अब्बानी गली, गुप्ता गली, शाहपुरा चौराहा मार्ग, मालियान गली नं. 01, 02, 03 नेहरू द्वारा मार्ग आदि)
21	चांगगेट नगर परिषद क्वार्टर्स से दक्षिण कोलेज रोड (विवेकानन्द मार्ग) के पूर्वी भाग को लेते हुए लोहार बस्ती बालमंदिर स्कूल, गंगामाई मंदिर के पास मोहनलाल जटिया के मकान तक वहां से गली में मुडकर गली के उत्तरी भाग को लेते हुए श्री सिंधी जटिया पंचायत भवन होते हुए चांदमल खनावलिया, गणपतलाल चोरटिया के मकान होते हुए संतोष जटिया के मकान तक वहां से उत्तर में स्थित पतली गली में मुडकर गली के पश्चिमी भाग को लेकर लालचन्द जटिया के मकान एवं पंचमुखी बालाजी मंदिर को शामिल करते हुए पतली गली में अनूप कुमार खन्ना एवं ललित कुमार खन्ना के मकान होकर विजय चौधरी के मकान होते हुए मेहता ऑफसेट तथा वहां से गोपाल गुप्ता तथा अरुण मित्तल के मकान तक तथा वहां से बालमंदिर स्कूल के दक्षिणी पूर्वी कोने तक तथा वहां से पूर्व में वेस्ट पेटेन्ट प्रेस को जाने वाली सड़क के उत्तरी भाग को शामिल कर गीता भवन रोड तक वहां से उत्तर मुडकर सड़क के पश्चिमी भाग को शामिल कर बाबा रामदेव मंदिर होते हुए तिजारती सर्फाफान धर्मशाला तक वहां से पश्चिम में मुडकर मुरली फूट वाले की दुकान को शामिल कर नगर परिषद की दुकानों को शामिल कर पुनः चांगगेट नगर परिषद क्वार्टर्स तक। (लोहार बस्ती, जटिया कोलोनी आंशिक, खन्ना कोलोनी आंशिक इत्यादि)
22	कॉलेज रोड (विवेकानन्द मार्ग) पर मोहनलाल कुमावत (गंगामाई मंदिर) के मकान से पूर्व गली में चलकर गली के दक्षिणी भाग को लेते हुए ओमप्रकाश जी सिंगाडिया के मकान से प्रहलाद जी बालोटिया के मकान से किशनजी गुसाईवाल के मकान से धारासिंह बोहरा के मकान तक (बोहरा सदन) यहां से उत्तर मुडकर पतली गली होते हुए पूर्वी भाग को शामिल करते हुए फुलवारी निवास लेते हुए आगे पतली गली में अर्जुन पेन्टर के मकान को लेते हुए आगे गोपीबाई पत्नि ठाकुरदास के मकान को शामिल करते हुए (गोपी निवास) आगे चलकर प्रेमकुंज लेकर मोहन खत्री के मकान के सहारे—सहारे नीरज बरडिया के मकान को एवं सनातन धर्म स्कूल के खेल मेदान को शामिल करते हुए पूर्व की ओर मुडकर दक्षिणी भाग को लेते हुए सामरिया सदन से Mr. & Mrs Cafe को शामिल कर गीता भवन की ओर मुडने वाली सड़क तक यहां से दक्षिण मुडकर पश्चिमी भाग को लेते हुए फिल्ड को पार कर समता भवन के पास स्थित उपाध्याय निवास से आगे चलकर निर्मल जैन (समता सदन) के मकान को शामिल कर ओमप्रकाश सोनी एवं आगे पण्डित जी की दुकान (दूध दही) को शामिल कर रमेश चन्द व्यास के मकान तक वहां से पश्चिम मुडकर सड़क के उत्तरी भाग को लेते हुए श्री किशनजी सांखला के मकान तक वहां से कृष्णगोपाल शर्मा के मकान होकर वहां से अरुण नागर पुत्र पूरणमल नागर एडवोकेट के मकान से शान्तिदेवी नागर के मकान तक वहां से उत्तर मुडकर सड़क के पूर्वी भाग को लेते हुए मुलचन्द रेगर के मकान तक वहां से पश्चिम सड़क पर चलकर बालाजी मंदिर को शामिल कर सड़क के उत्तरी भाग को लेते हुए छोटूलाल खोरवाल के मकान तक वहां से उत्तर मुडकर नगर परिषद (जटिया कोलोनी) का सामुदायिक भवन तक वहां से भवन के सामने वाली सड़क पर पश्चिम में चलकर चुन्नीलाल जटिया का मकान व गली का उत्तरी भाग लेते हुए ताराचन्द कुर्डिया का मकान होते हुए नन्दलाल के मकान व वासूदेव बाकोलिया के मकान से कॉलेज रोड (विवेकानन्द मार्ग) पर घनश्याम दास कुर्डिया के मकान तक वहां से उत्तर मुडकर पुनः मोहनलाल कुमावत (गंगामाई मंदिर के पास) के मकान तक। (जटिया कोलोनी, )
23	कॉलेज रोड (विवेकानन्द मार्ग) नेहा विलनिक से पूर्व दिशा में चलकर सड़क के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए साईबाबा मंदिर के सहारे मदनलाल सांगेला के मकान तक वहां से उत्तर मुडकर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए मदनजी खोखर के मकान के सहारे प्रहलादराय धावरी के मकान से आगे चलते हुए गोविन्द पण्डित के मकान को शामिल कर प्रेमचन्द थामेत

	<p>के मकान तक वहां से पूर्व मुडकर उत्तरी भाग को लेते हुए चेतनदास जी कुर्डिया के मकान के सहारे—सहारे ठाकुरजी खनावलिया के मकान तक वहां से उत्तर मुडकर पश्चिमी भाग को लेते हुए तिलोक चन्द खन्ना के मकान व किराणे की दुकान तक वहां से पश्चिम चलकर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए कुम्भाराम जी कुर्डिया के मकान के सहारे ओमजी नागर के मकान तक वहां से सामने गली में शंकरलाल पुत्र भीकमचन्द जी जटिया के मकान से उत्तर चलते हुए पश्चिमी भाग के सहारे—सहारे चौथमल पुत्र भीकमचन्द जाटोलिया के मकान तक वहां से पश्चिम मुडकर सड़क के दक्षिणी भाग लेते हुए कौशल जटिया के मकान होते हुए पेमाजी बोहरा के मकान से लेखराज बालोटिया के मकान होते हुए वहां से कॉलेज रोड (विवेकानन्द मार्ग) पर शिव इजिनियरिंग वर्क्स तक (डॉ० घनश्याम अहूजा तक) वहां से दक्षिण मुडकर पुनः कॉलेज रोड (विवेकानन्द मार्ग) नेहा विलनिक तक। (हरिजन कोलोनी आंशिक, जटिया कोलोनी आंशिक, कॉलेज रोड)</p>
24	<p>गीता भवन से दक्षिण की ओर चलते हुए पूर्व भाग को शामिल करते हुए पीपली चौराहे होते हुए सांड के मकान के सहारे—सहारे नोरत घोड़ी वाले के मकान को शामिल करते हुए सत्यनारायण के मकान मे गजानन्द आटा की चक्की तक वहां से पूर्व मुडते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए चम्पालाल भाटी के मकान व किराणे की दुकान को शामिल करते हुए सुभासजी मावे वाले के मकान तक वहां से उत्तर मुडकर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए नथ्यूमल सिंधी फूट वाले के मकान तक वहां से पूर्व मुडकर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए रामलाल सांखला के मकान के सहारे—सहारे ओमप्रकाश सांखला के मकान तक वहां से उत्तर मे चलकर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए चन्दू पान चौराहे पर रामगोपाल बर्फ वाले के मकान के सहारे—सहारे चन्द्रकला जैन के मकान तक मरुधर केसरी शॉरूम को शामिल करते हुए नेहरू गेट को शामिल करते हुए परकोटे की दीवार तक (गिब्सन हॉस्टल शामिल नहीं) वहां से पश्चिम मे चलकर दक्षिणी भाग को लेते हुए परकोटे के दीवार के सहारे—सहारे गीता भवन को जाने वाली सड़क तक वहां से दक्षिण में मुडकर रामपाल उपाध्याय, जगदीश भुटडा के मकान होते हुए पुनः गीता भवन तक। (गीता भवन मार्ग, नेहरू नगर आंशिक)</p>
25	<p>बह्यानन्द धाम रोड (बह्यानन्द मार्ग) पर सोहनलाल मुणोत के मकान से पश्चिम चलकर सड़क के उत्तरी भाग को लेते हुए कुमावत समाज भवन, से सीधे चलते हुए पारसमल रील (ड्राईवर) के मकान तक वहां से उत्तर गली मे मुडकर गली के पूर्वी भाग को लेते हुए गणपत पण्डित यहां से भरतटांक के मकान को शामिल कर शान्तिलाल डुलगच के मकान तक वहां से पूर्व मुडकर गली के दक्षिणी भाग को लेते हुए नेनसिंह गहलोत एवं चम्पालाल भाटी के मकान होते हुए बी.एल गोठी स्कूल के उत्तर पूर्वी कोने के ट्रान्सफार्मर (गीता भवन से आने वाली सड़क पर) तक यहां से वर्धमान कॉलेज को सम्मिलित कर कॉलेज के मुख्य गेट होते हुए कॉलेज के उत्तरी पूर्वी कोने तक वहां से गली में रमेश कच्छावा के मकान तक वहां से गली मे उत्तर मे मुडकर गली के पूर्वी भाग को लेते हुए धर्मेन्द्र जांगिड के मकान तक वहां गली से पूर्व मे मुडकर गली के उत्तरी भाग को लेते हुए सुखराज डोसी के मकान (नेहरू गेट से आने वाली सड़क पर) तक वहां से उत्तर मुडकर नेहरूगेट मार्ग के पूर्वी भाग को लेते हुए अमरचन्द नागौरा के मकान होते हुए पन्नालाल दगदी के मकान, चन्दूपान पैलेस चौराहे तक वहां से पूर्व मुडकर गली के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए पदमचन्द श्रीश्रीमाल ओम नगर से भंवरलाल महावीर चन्द खीचा रामनगर के मकान को लेते हुए तातेड सदन रॉयल एन.एस. बिल्डिंग तक (बह्यानन्द मार्ग) वहां से बह्यानन्द मार्ग पर पश्चिम मे मुडकर सड़क के उत्तरी भाग को लेते हुए डॉ० बी.सी. सोगानी के मकान होकर सत्तू हलवाई की दुकान को शामिल करते हुए पुनः बह्यानन्द धाम रोड पर सोहनलाल मुणोत के मकान तक। (कृष्णा कोलोनी आंशिक, हरिजन कोलोनी आंशिक, मुणोत नगर इत्यादि)</p>
26	<p>उदयपुर रोड (पृथ्वीराज चौहान मार्ग) पर बह्यानन्दधाम से पूर्व की ओर चलते हुए उदयपुर रोड (पृथ्वीराज चौहान मार्ग) के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए लोकेन्द्र शर्मा (प्रथम जनरल स्टोर की दुकान तक) आशापुरा माता मंदिर से पहले चौराहे से उत्तर मुडकर सड़क के पश्चिमी भाग</p>

	<p>को लेकर ओमप्रकाश साहू के मकान को लेते हुए देवकिशन सोनी लेकचरार के मकान तक (न्यू वृन्दावन गार्डन चौराहा) परमाराम साहू (जादम निवास) के मकान को शामिल करते हुए महावीर भवन तक यहां से आगे चलकर सेठ श्री चम्पालाल जैन (नवकार पौषधशाला) को शामिल करते हुए कबिस्तान की दीवार तक यहां से दीवार के सामने रांकाजी की बगीची को शामिल कर पूर्व की ओर चलते हुए सड़क उत्तरी भाग में गणेशम् मार्केट मेवाड़ी गेट में अन्दर घुसकर पश्चिम में मुड़कर दक्षिणी भाग को लेते हुए जैन दिवाकर लाइब्रेरी से आगे चलकर मारुसैन समाज छात्रावास रेंगरान छोटाबासा पंचायत भवन होते हुए नेहरू गेट तक यहां से दक्षिण मुड़कर पूर्वी भाग को लेते हुए जैन स्थानक शिव व्यायाम शाला से आगे चलकर मोहनजी सोलंकी (कचौरी वाले) के मकान तक यहां से पूर्व मुड़कर सड़क के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए चिम्मन सिंह लोढ़ा स्कूल, जोधपुर ऑटो रिपेयर से आगे चलते हुए विश्वकर्मा भवन तक यहां से पूर्व में मुड़कर रांकाजी की बगीची तक तथा रांकाजी की बगीची के सामने कॉर्नर से पश्चिम में चलकर दक्षिणी भाग को लेते हुए पारसमल तेली के मकान को शामिल करते हुए गुर्जर गौड़ छात्रावास को शामिल करते हुए छल्लाणी मेन्सन को शामिल करते हुए (मालपानी के मकान होते हुए) पुनः उदयपुर रोड (पृथ्वीराज चौहान मार्ग) पर बह्मानन्दधाम तक।          (लोढ़ा नगर, विनोद नगर आंशिक आदि)</p>
27	<p>मेवाड़ी गेट के अन्दर उत्तम ऑटो पार्ट्स की दुकान से पश्चिम की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए उत्तम चन्द कांकरिया के मकान के सहारे—सहारे चांदमल पिपाडा के मकान होते हुए स्वतंत्रराय फुलवारी के मकान को शामिल कर रेंगरान छोटाबास चोक में गंगामाई व हनुमान मंदिर के सहारे पिछली दीवार तक वहा से उत्तर मुड़कर सामने हरिजी सिंगाड़िया के मकान तक वहां से पश्चिम मुड़कर उत्तरी भाग को लेते हुए भगवानदास जी गोस्यामी के मकान के सहारे—सहारे रा.प्रा.वि. रेंगरान छोटाबास व्यावर तक वहां से उत्तर मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए अमरचन्द प्रधान के मकान तक वहां से पूर्व मुड़कर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए स्टेट बैक ए.टी.एम को शामिल करते हुए नेमीचन्द खटोड़ के मकान के सहारे चलकर दर्जीयान मंदिर को शामिल करते हुए हमीरमल दूलीचन्द भण्डारी के मकान तक वहां से सड़क पार कर सीधे चलते हुए ओमप्रकाश प्रजापति के मकान को शामिल कर रामेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट के मकान के सहारे—सहारे अजय डोसी के मकान तक वहां से परकोटे की दीवार तक परकोटे की दीवार के सहारे—सहारे दक्षिण में चलकर मेवाड़ी गेट की पुलिस चोकी को शामिल करते हुए पुनः मेवाड़ी के गेट के अन्दर उत्तम ऑटो पार्ट्स की दुकान तक।          (कोट गली आंशिक, रेंगरान छोटाबास, खारिया कुआ, खटीकान मोहल्ला, खटीकान हथाई, साई का तकिया गली आदि)</p>
28	<p>मेवाड़ी गेट (भंवरलाल बाबेल गली) के अन्दर सिटी डिस्पेन्सरी से पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए नरेन्द्र कांकरिया के मकान से आगे चलकर बंजरगबली के मंदिर को शामिल करते हुए हेमचन्द सिंधवी के मकान तक वहां से उत्तर मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए माणकचन्द सेठीया के मकान से आगे चलकर कोठारी भवन को शामिल कर जैन स्थानक तक यहां से मनोहर जी मुथा के मकान तक वहां से पूर्व मुड़कर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए मुकुट बिहारी लाहोटी एडवोकेट के मकान को शामिल करते हुए गोतमजी बोहरा के मकान (गोतम मेडिकल) तक वहां से सड़क को पार कर किनरो की हवेली को शामिल करते हुए शिवजी साहू के मकान होते हुए धनराज जी विनायकिया के गोदाम के सामने उत्तर में मुड़कर गली के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए दोलतराम जी साहू के मकान के सहारे—सहारे चलते हुए पूर्व पार्षद कमला साहू के मकान को शामिल करते हुए पृथ्वीराज साहू के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुड़ते हुए दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए ताराचन्द जी साहू के मकान व किराणे की दुकान को शामिल करते हुए देवाजी तेली के मकान होते हुए ठाकुर जी के मंदिर को शामिल करते हुए योगेश आसरवा के मकान के सहारे—सहारे रामचन्द (आटे की चक्की तक) वहां से पूर्व की ओर चलते हुए (परकोटे की दीवार तक) बाबूलाल साहू के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़ते हुए पूर्वी भाग को लेते हुए प्रसन्न गणपती टुल्स होते हुए महेन्द्र किराणे स्टोर से आगे चलकर नन्दराम कण्डिवाल के</p>

	<p>मकान को शामिल कर सरकारी शौचालय के सहारे—सहारे तेलीयान पंचायत मारवाड़ा भवन तक वहां से पश्चिम में मुड़कर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए राजकीय बालिका उ.मा.वि. शाहपुरा मोहल्ला दामोदर पार्क के सहारे चलकर पुनः मेवाड़ी गेट के अन्दर सिटी डिस्पेन्सरी तक।          (कोट गली मेवाड़ी गेट, गिरदावर गली, तेलीयान मोहल्ला आंशिक आदि)</p>
29	<p>चांग चितार रोड पर गुरुबच्चन सिंह छाबड़ा के नोहरे से पतली गली में मुड़कर शनि सिंगापुर मंदिर होते हुए बालमुकन्द जोशी के मकान तक यहां से दक्षिण में मुड़कर सुन्दर नगर गली नं. 03 की सड़क का पूर्वी भाग को शामिल करते हुए ओमप्रकाश जी कुमावत (महिमा बेगल्स) को शामिल कर आगे हमनानी मेन्सन (3/10 सुन्दर नगर) को शामिल करते हुए रामेदव जी के मंदिर के सामने रामेदव जी जोशी के मकान तक यहां से पश्चिमी में मुड़कर सड़क के दक्षिणी भाग को लेते हुए कमल किशोर पाखरोट (2/3 सुन्दर नगर) के मकान तक यहां से दक्षिण मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल कर अजीतसिंह पंजाबी, वासुदेव गगवानी के मकान को लेकर कमल पब्लिक स्कूल तक यहां से जमालपुरा रोड पर पूर्व में मुड़कर उत्तरी भाग को लेकर डॉ बी.बी. शर्मा के मकान से आगे गणगौर होटल को शामिल करते हुए (मुख्य सेन्दडा रोड पर) गोपाल डेयरी, ओम यातायात तक यहां से पश्चिमी भाग को लेते हुए जसराज शर्मा के मकान से आगे बूटासिंह मुछल चांगचितार रोड के मकान तक यहां से पश्चिम मुड़कर दक्षिणी भाग को लेते हुए सरदार अमरसिंह के मकान को शामिल कर आगे चलकर श्री सुरेश पान वाले के मकान होते हुए पुनः चांग चितार रोड पर गुरुबच्चन सिंह छाबड़ा के नोहरे तक।          (सुन्दर नगर गली नं. 2, 3, चांगचितार रोड आंशिक, महावीरगंज आदि)</p>
30	<p>चांगचितार रोड पर चंन्द्रा व सुखदेव गुर्जर की चाय की दुकान से शनि सिंगापुर मंदिर की पतली गली में चलकर सुन्दर नगर गली नं. 03 पश्चिमी भाग को लेकर जयराम गिरी, जगदीश कुमावत के मकान होते हुए श्री बाबारामदेव मंदिर (प्रजापति समाज का) तक यहां से गली के पश्चिम में मुड़कर गली का उत्तरी भाग लेते हुए पुखराज प्रजापति के मकान से सोहनलाल जोशी के मकान तक यहां से गली में दक्षिण में मुड़कर गली का पश्चिमी भाग हापूदेवी पत्नि भंवरलाल प्रजापति (सुन्दर नगर गली नं. 2), लादूराम प्रजापति का मकान होते हुए शिवप्रकाश शर्मा जांगिड के मकान व दुकान जमालपुरा रोड तक यहां से पश्चिम चलकर सड़क का उत्तरी भाग को लेते हुए देवांशु अरोडा पुत्र नरेन्द्र कुमार अरोडा (नन्द नगर गली नं. 2) के कोने तक यहां से उत्तर मुड़कर सड़क के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए अनिल टांक पुत्र रामेश्वर टांक की दुकान तक यहां से दुकान के सामने स्थित गली में पश्चिम मुड़कर गली के उत्तरी भाग को लेते हुए मांगीलाल जी के मकान से सोहनलाल जी जोशी के मकान के सहारे—सहारे हीरानन्द भोजवानी के मकान के आगे बृजमोहन चौधरी एडवोकेट व लालचन्द बालोटिया के मकान तक यहां से उत्तर मुड़कर गली के पूर्वी भाग को लेकर किशनलाल बोहरा के मकान तक (संजय नगर गली नं. 1) वहां से संजय नगर सामुदायिक भवन से जागृति जनरल स्टोर से चुन्नीलाल मेवाड़ा के नोहरे तक यहां से पूर्व मुड़कर गली के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए रामपाल तेजराज के मकान तक यहां से गली में उत्तर मुड़कर गली के पूर्वी भाग को लेते हुए (पंजाबी जीण) सुभाष चन्द पुत्र मांगीलाल बैरवा से मोहनलाल लोगानी एडवोकेट के मकान व दुकान तक वहां से पूर्व मुड़कर चांगचितार रोड के दक्षिणी भाग को लेते हुए चन्द्रा सुखदेव गुर्जर की चाय की दुकान तक।          (नन्द नगर, पंजाबी जीण, पुरानी संचेती फैकट्री आदि)</p>
31	<p>जमालपुरा रोड नन्द नगर गली नं. 02 मदन कुमावत के मकान से उत्तर दिशा में चलकर ज्ञानसागर पब्लिक स्कूल से उम्मेद सिंह रावत के मकान तक वहां से पश्चिम मुड़ दक्षिणी भाग को लेकर जोगराम विधिन के मकान को शामिल करते हुए भूदेव शर्मा पन्नालाल रेगर के नोहरे तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग को लेकर प्रकाश परिहार के मकान से राजकुमार मुरजानी के मकान तक वहां से पश्चिम में मुड़कर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए दिनेश जी कुमावत के मकान तक वहां से दक्षिण में मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए मुकेश शर्मा केबल ऑपरेटर के मकान से बंशीलाल परिहार के मकान तक वहां से सड़क के सामने भगवान दास जी बोहरा के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए</p>

	<p>राजेन्द्र कुमार भट्ट व लालसिंह रावत के मकान से फतेहपुरिया चौक में राजेश किरणा स्टोर तक वहाँ से दक्षिण मे मुडकर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए पदमसिंह रावत के मकान से बाबूसिंह रावत के मकान तक वहाँ से पूर्व मुडकर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए गणपत सिंह कड़ीवाल के मकान से राजेन्द्र प्रसाद भट्ट के मकान तक वहाँ से उत्तर मुडकर पश्चिमी भाग को लेते हुए मनोहर जी सिंगाड़िया के मकान से विष्णु किरणा स्टोर पुरुषोत्तम भारती एडवोकेट का मकान से सुखदेव बोहरा (गंगामाई चौराहे पर) के मकान तक वहाँ से सड़क कोस करके पूर्व की ओर चलकर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए रेगर पंचायत भवन को शामिल करते हुए रामपाल जाटोलिया के मकान के सहारे-सहारे गोविन्दराम जी बारूपाल के मकान व आठे की चक्की को शामिल करते हुए पुनः जमालपुरा रोड नन्द नगर गली नं. 2 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक।</p> <p>(नन्द नगर आंशिक, संजय नगर आंशिक, गंगामाई चौराहा आदि)</p>
32	<p>फतेहपुरिया द्वितीय चौक (रेदासपुरा गली नं. 1) शिवराज मेवाड़ा के मकान से उत्तर की ओर चलकर सड़क के पूर्वी भाग को लेते हुए श्री भगवानदास नागौरा के मकान से ओमकार जनरल स्टोर से सीताराम सामरिया से विजयकिशन रेंगर के मकान तक यहाँ से पूर्व मुडकर दक्षिणी भाग (पंजाबी जीण) को लेकर धन्नाराम तुनगारिया के मकान से आगे चलकर कमलेश तुनगरिया की दुकान तक वहाँ से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा भवन के सहारे-सहारे दुर्गाप्रसाद चावला के मकान होते हुए प्रकाश दासवानी के मकान तक वहाँ से पश्चिम मुडकर उत्तरी भाग को लेते हुए मांगीलालजी मेवाड़ा के मकान को शामिल करते हुए ओमप्रकाश मेवाड़ा के मकान तक वहाँ से दक्षिण मे मुडकर पूर्वी भाग को लेते हुए प्रेमचन्द मेवाड़ा (संजय किरणा स्टोर) से बालकनाथ पब्लिक स्कूल से कमलादेवी पत्नि रामकरण बेरवा के मकान तक वहाँ से पश्चिम मुडकर उत्तरी भाग को लेते हुए मनोहर लाल बेरवा के मकान तक वहाँ से दक्षिण मुडकर उत्तरी भाग को लेते हुए मनोज तवंर के मकान के सहारे-सहारे स्टार पब्लिक स्कूल को शामिल करते हुए (संजय नगर गली नं. 2) मोहनलाल तवंर के मकान तक वहाँ से पश्चिम मुडकर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए राजकीय माध्यमिक विधालय फतेहपुरिया दोयम स्कूल होते हुए दीपा किरणा स्टोर (हंस भवन) से कमाण्डर डी.एस. भाटी के मकान को शामिल करते हुए पुनः फतेहपुरिया द्वितीय चौक में रेदासपुरा गली नं. 01 शिवराज मेवाड़ा के मकान तक।</p> <p>(रेदासपुरा गली नं. 1 आंशिक, संजय नगर आंशिक, पंजाबी जीण आंशिक, बैरवा बस्ती आदि)</p>
33	<p>फतेहपुरिया द्वितीय शमशान घाट से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए सुनील थामेत (मैरू नगर) के मकान होते हुए रामसिंह जी रावत (भवानी कोलोनी) के मकान होते हुए भंवरसिंह गहलोत के मकान को शामिल करते हुए खान के सामने वाले मकान को लेते हुए दिलीप किरणा स्टोर के तिराहे तक वहाँ से उत्तर दिशा मे चलते हुए लक्ष्मणसिंह रावत के मकान को शामिल करते हुए फतेहपुरिया चौक में अशोक किरणा स्टोर से गणपत सिंह रावत के मकान व दुकान एवं न्यू वन्दना इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान तक वहाँ से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए शिव मंदिर से राजकीय माध्यमिक विधालय द्वितीय स्कूल से आगे चलते हुए मदनजी सामरिया के मकान होते हुए मदन नागौरा की दुकान के सहारे-सहारे विजय ठेकेदार के मकान से रामदेव जी का मंदिर होते हुए कैलाश तुनगारिया पूर्व पार्शद के मकान तक वहाँ से पश्चिम मुडकर दक्षिणी भाग को लेते हुए जी.के पिंक पैलेस मैरिज गार्डन होते हुए गहलोत सदन से आगे चलकर राजेश पुत्र धन्नाराम साहू के मकान से बी.बी. शर्मा के मकान को शामिल करते हुए आगे प्रेम सिंह का मकान (कल्याण कोलोनी) से आगे नदी तक नदी से दक्षिण मुडकर नदी के सहारे-सहारे पूर्वी भाग को शामिल करते हुए पुनः फतेहपुरिया द्वितीय शमशान घाट तक।</p> <p>(भवानी कोलोनी, रेदासपुरा गली नं. 1 आंशिक, कल्याण कोलोनी, हिम्मत नगर आदि)</p>
34	<p>सेन्दडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) शिव मंदिर तिराहे (श्याम डिस्पोजल स्टोर) से पश्चिम की ओर चलते हुए (गंगामाई मार्ग) सड़क के दक्षिणी भाग को लेकर शिवनाथमल कुमावत मार्केट, महिला स्नान घर, गंगामाई मंदिर चौराहे पर गीतमाला इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान तक यहाँ से दक्षिण मुडकर गली के पूर्वी भाग को लेते हुए भंवरलाल रेगर के मकान के पास</p>

	<p>खाली प्लाट तक वहां से पूर्व मुड़कर माणकजी माली के मकान व दुकान को लेते हुए दिनेश भाटी (साईकूपा) के मकान को समिलित करते हुए सुरेशजी जोशी के मकान को शामिल करते हुए सेन्डडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) मुख्य सड़क पर लक्ष्मण सिंह रावत प्रोपर्टी डीलर तक वहां से उत्तर मुड़कर अशोक पैलेस गार्डन को शामिल करते हुए पुनः सेन्डडा रोड शिव मंदिर तिराहे पर श्याम डिस्पोजल स्टोर तक। (जमालपुरा रोड, विकास नगर आंशिक, सेन्डडा रोड आंशिक आदि)</p>
35	<p>फतेहपुरिया चौक (कड़ीवाल पंचायत भवन) के पास गोगसिंह रावत के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए मोखमसिंह रावत के मकान के सहारे—सहारे कमला रावत पार्श्व द के मकान को शामिल करते हुए गीता डेयरी फार्म से मोहनलाल फुलवारी की किराणे की दुकान व मकान के सहारे—सहारे चांदमल सिंघारिया के मकान के आगे खाली भूखण्ड तक वहां से पश्चिम मे मुड़कर गली के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए भंवरजी तुनगरिया के मकान व किराणे की दुकान को शामिल करते हुए ओमप्रकाश जी कुमावत के मकान तक वहां से उत्तर मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए मानसिंह गैस वाले के मकान के सहारे—सहारे दिलीप सिंह खींची के मकान होते हुए जेठसिंह रावत के मकान को शामिल करते हुए बिरदासिंह आटे की चक्की के तिराहे तक वहां से उत्तर पूर्व मुड़कर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए बिरमसिंह रावत के मकान व श्री हिंगलाज किराणा स्टोर की दुकान के सामने रतनलाल पारासर के मकान से पश्चिम मे चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए जसवन्त सिंह रावत के मकान के सहारे—सहारे सलामुद्दीन मास्टर साहब के मकान को शामिल करते हुए शंकरलाल कटारिया के मकान व किराणे की दुकान होते हुए छंगरसिंह रावत के खेत को पार करके नदी तक वहां से उत्तर में चलकर नदी के सहारे—सहारे चलकर फतेहपुरिया द्वितीय के शमशान घाट रोड तक यहां से पूर्व मुड़कर सड़क के दक्षिणी भाग को लेते हुए अशोक साध (भवानी कोलोनी) को शामिल कर प्रवीण सिंधीवाल के मकान को शामिल कर आगे भीमसिंह रावत का मकान से आगे चलकर धर्मीचन्द धोधवात के मकान को शामिल कर सड़क के सहारे—सहारे चलकर गोविन्दसिंह राठोड के मकान तक (देवनारायण मंदिर तक) यहां से दिलीप किराणा स्टोर को शामिल कर पूर्व की ओर चलते हुए देवनारायण दूध भण्डार को शामिल कर पुनः फतेहपुरिया चौक मे (गंगामाई मंदिर) कड़ीवाल पंचायत भवन के पास गोगसिंह रावत के मकान तक। (फतेहपुरिया आंशिक, कुमावत कोलोनी आंशिक आदि)</p>
36	<p>सेन्डडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) टेकरी वाले बालाजी मंदिर के सामने वाली सड़क से उत्तर मे चलकर पश्चिमी भाग को लेते हुए रामेश्वरलाल सोनी (श्री विनायक कोलोनी में) के मकान होते हुए देवडा की चक्की को शामिल करते हुए जाग्रत नगर के सहारे—सहारे रामपाल जी सिंघारिया के मकान तक वहां से पश्चिम मुड़कर दक्षिण भाग को शामिल करते हुए हरिश सिंघारिया के मकान से बंशीलाल बोहरा, गणपत कुमावत, रामचन्द्र घोडेला के मकान तक वहां से उत्तर मुड़कर पश्चिमी भाग को लेकर पुरुषोत्तम जोशी के मकान से मदन जी सैन से लेकर पतासी देवी काठात के मकान के सहारे—सहारे बिरदासिंह की चक्की तक वहां से पश्चिम मे मुड़कर बिरदा सिंह के नोहरे के सहारे—सहारे दाउलाल जी सिंघारिया के मकान होते हुए सोहनसिंह रावत के मकान व किराणे की दुकान को शामिल करते हुए श्रवण सिंह रावत का खेत व कुएं होते हुए नदी तक वहां से दक्षिण मे मुड़कर नदी के सहारे—सहारे पूर्वी भाग को शामिल करते हुए सेन्डडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) के शमशान घाट की पुलिया तक वहां से पूर्व में मुड़ते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए अकबर मोटर्स गैराज, अग्रसेन स्कूल, आई.ओ.सी कोलोनी का मुख्य द्वार होते हुए सोमानी नगर के सहारे—सहारे श्याम सर्विस सेन्टर होते हुए पुनः सेन्डडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) टेकरी वाले बालाजी के सामने वाली सड़क पर। (महादेव कोलोनी, सोमानी नगर, कुमावत कोलोनी आंशिक, विनायक नगर आदि)</p>
37	<p>सेन्डडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) पर श्री कृष्ण इंट उद्योग की दुकान से उत्तर में चलते हुए गली के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए सुरेन्द्र सिंह रावत के मकान तक (फतेहपुरिया चौक) यहां से दक्षिण मुड़कर सड़क के पूर्वी भाग को लेते हुए जयमॉ नोसरा</p>

	<p>किरणा स्टोर होते हुए श्री धेवरसिंह, अध्यापक के मकान तक यहां से आगे चलकर राधेशयम रामलाल प्रजापत के मकान को शामिल कर आगे खेत की दीवार के सहारे चलकर श्री हॉस्पीटल के पास गोरधन साहू के मकान से गोपीलाल रामचन्द्रानी के मकान तथा सेन्डडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) मुख्य सड़क पर बालाजी टाईल्स तक यहां से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तरी भाग को शामिल कर राजमहल होटल तक यहां से आगे चलकर नाहरमल की बावडी को लेते हुए डांगी गैस सर्विस से पुनः सेन्डडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) पर श्री कृष्णा ईट उद्योग की दुकान तक। (के.एम. कोलोनी, बापू नगर, कुमावत कोलोनी आंशिक, विकास नगर आंशिक आदि)</p>
38	<p>जालिया रोड (नीलकण्ठ महादेव मार्ग) पर अजगर बाबा के थान से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बल्दुआ की फैक्ट्री, कनक टॉवर होते हुए प्रेमनगर, सोहन नगर, भार्गव कोलोनी के समस्त पूर्वी भाग को शामिल करते हुए पाण्डे निवास से चलकर रंगजी के मंदिर से आर. एम. टाईल्स की गली तक वहां से पूर्व मुड़कर (प्रताप नगर गली नं. 1) सड़क के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए कृष्णा बेकरी से आगे चलकर सत्यनारायण झंवर के मकान तक वहां से पश्चिम मुड़कर कच्चे रास्ते होते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए लकड़ी की टाल के पिछले हिस्से तक वहां से दक्षिण चलते हुए वृन्दावन कोलोनी के समस्त मकान (कहैयालाल मणियार के मकान को शामिल करते हुए) दीवार के सहारे—सहारे भार्गव कोलोनी में जाने वाली सड़क तक वहां से दक्षिण दिशा में चलते हुए सनातन धर्म महाविधालय की पीछे की दीवार के सहारे—सहारे पश्चिमी भाग को लेते हुए गायत्री नगर लिंक रोड तक वहां से पश्चिम में मुड़कर ललित जांगिड फर्निचर के कारखाने को शामिल करते हुए व उत्तरी भाग के समस्त मकान (कॉटन फैक्ट्री होते हुए गणेश स्टील इंडस्ट्रीज को) लेकर पुनः जालिया रोड (नीलकण्ठ महादेव मार्ग) पर अजगर बाबा के थान तक। (प्रेम नगर, सोहन नगर, भार्गव कोलोनी, सेन्डडा रोड आंशिक, प्रताप नगर गली नं. 1 आंशिक आदि)</p>
39	<p>चांग गेट बाहर पप्पू रेस्टोरेंट से दक्षिण दिशा में कॉलेज रोड (विवेकानन्द मार्ग) पर चलकर सड़क के पश्चिमी भाग को लेकर कॉलेज की चार दीवारी के उत्तरी पूर्वी कोने तक वहां से पश्चिम चलकर कॉलेज की उत्तरी सरहद होते हुए उत्तरी पश्चिमी कोने तक वहां से उत्तर चलकर भार्गव कोलोनी की पूर्वी सरहद होते हुए पूर्वी भाग को लेते हुए उत्तम जी कबाड़ी की दुकान को सम्मिलित करते हुए सेन्डडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) रंगजी के मंदिर के उत्तर पूर्वी कोने तक वहां से उत्तर चलकर पूर्वी भाग को लेते हुए गोयल मिष्टान भण्डार होते हुए चांग गेट बाहर पप्पू रेस्टोरेंट तक। (प्रताप नगर, सांखला कोलोनी, गायत्री नगर, कुशालनगर आदि)</p>
40	<p>ब्रह्मानन्द धाम चौराहे (ब्रह्मानन्द मार्ग) पर चौधरी मिष्टान भण्डार से मेवाड़ी गेट उत्तर पूर्वी दिशा में चलते हुए सड़क के पश्चिमी भाग को लेते हुए दिलीप जाजू के मकान से (शास्त्री नगर सम्पूर्ण) भैरूजी के मंदिर व पीपली को शामिल करते हुए मनोज जी अरोड़ा की तम्बाकू फैक्ट्री तक वहां से पश्चिम की तरफ मुड़कर सड़क के दक्षिणी भाग को लेते हुए रामदेव जी साहू के मकान से गणपति किरणा स्टोर तक यहां से सड़क पार करके शोभा मारोठिया के मकान तक (पूर्व पार्षद) यहां से हनुमान गुजराती के मकान को शामिल करते हुए विष्णु बजारी के मकान तक यहां से उत्तर मुड़कर कॉलेज के लेक्चरर व्हाटर्स तक यहां से पश्चिम मुड़कर भार्गव कोलोनी की दीवार तक वहां से दक्षिण मुड़कर कालेज के पीछे की दीवार के सहारे—सहारे चलकर अजगर बाबा लिंक रोड तक यहां से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तरी भाग होटल मनोज को शामिल करते हुए उदयपुर रोड (पृथ्वीराज चौहान मार्ग) पर ई.एस.आई. डिस्पेन्सरी एवं पी.एन.टी कोलोनी एवं एल.आई.सी ऑफिस को होते हुए पुनः ब्रह्मानन्द धाम चौराहे (ब्रह्मानन्द मार्ग) चौधरी मिष्टान भण्डार तक। (शास्त्री नगर, विनोद नगर आंशिक, बोहरा कोलोनी, पी.एम.टी कोलोनी, उदयपुर रोड आंशिक आदि)</p>
41	<p>सेन्डडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) अजगर बाबा लिंक रोड तिराहे से पश्चिम की ओर चलते हुए सेन्डडा रोड सतीश जाग्रत की दुकान के कोने से दक्षिणी भाग को लेते हुए टेकरी</p>

	<p>वाले बालाजी का मंदिर, सूर्यमहल होटल को शामिल करते हुए राजेन्द्र ऑटो मोबाईल के आगे तीन दुकानों (आई.ओ.सी कोलोनी के मुख्य गेट के सामने) तक वहां से दक्षिण पश्चिम चलकर गोविन्दपुरा खसरा सं. 83 नगर परिषद, व्यावर सीमा तक वहां से पूर्व चलकर नगर परिषद की सीमा से होते हुए जालिया रोड (निलकण्ठ महादेव रोड) पार कर नगर परिषद की सीमा के सहारे—सहारे चारभुजा कोलोनी के आगे स्थित मुकेश जोशी (चार मकान एक समान) तक वहां से उत्तर दिशा में चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए कॉलेज ग्राउण्ड के सहारे—सहारे राजेन्द्र सिंह रावत के मकान होते हुए पूनमचन्द चाट वाले के मकान को शामिल करते हुए अजगर बाबा लिंक रोड तक यहां से पश्चिम मुड़कर दक्षिणी भाग को लेते हुए इन्दू शर्मा पत्नि पुरुषोत्तम शर्मा के नोहरे को शामिल करते हुए अभिषेक टिम्बर आगे जालिया रोड (निलकण्ठ महादेव मार्ग) तक पहुंच कर उत्तर की ओर मुड़कर पुनः सेन्डडा रोड (निरंजन देव शंकराचार्य मार्ग) तिराहे पर सतीश जाग्रत की दुकान तक।</p> <p>(मयूर कोलोनी, मूलचन्द नगर आंशिक, जाना कोलोनी आंशिक, सेठ सावरिया कोलोनी, द्वारकाधीश कोलोनी, चारभुजा कोलोनी, गोकुल नगर आंशिक, गायत्री नगर लिंक रोड अजगर बाबा लिंक रोड आंशिक आदि)</p>
42	<p>गायत्री नगर लिंक रोड (अजगर बाबा लिंक रोड) पर होटल मनोज के सामने गली में दक्षिण में चलकर पूर्वी भाग के समस्त मकान को शामिल करते हुए गोकुल नगर विकास समिति के मंदिर होते हुए मोहिन्द्रराय फुलवारी के मकान से मुकेश जोशी (चार मकान एक समान) के मकान के सामने वाली गली में पूर्व को मुड़कर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए सिरवी छात्रावास के तिराहे तक वहां से सिरवी छात्रावास की पिछली दिवार से उत्तर मुड़कर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए वृद्धा आश्रम, पार्श्वनाथ होस्पिटल की दिवार तक वहां से पश्चिम मुड़ते हुए टॉटगढ़ रोड पानी की टंकी से कार्तिक शान्ति ओम गार्डन को शामिल करते हुए वहां से पुनः गायत्री नगर लिंक रोड (अजगर बाबा लिंक रोड) पर होटल मनोज के सामने की गली तक।</p> <p>(गोकुल नगर आंशिक, बी.एम. शर्मा नगर, नगर परिषद कर्म. कोलोनी, सिद्धी विनायक नगर, अक्षय नगर आदि)</p>
43	<p>उदयपुर रोड (पृथ्वीराज चौहान मार्ग) ब्रह्मानन्द धाम चौराये पर श्री विनोद मुकुट ट्रस्ट (ब्रह्मानन्द जी बगीची, गायत्री शक्ति पीठ) से पूर्व की ओर चलते हुए सड़क के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए डॉ कमल अरोड़ा के मकान से मंगलम फर्निचर को सम्मिलित करते हुए सेक्टर नं. 4 हाउसिंग बोर्ड चौराये पर सरस् दुध डेयरी की केबिन तक वाह से दक्षिण मुड़ कर सड़क के दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए साकेत नगर 2/34 डॉ प्रमोद सक्सेना के मकान को शामिल करते हुए साकेत नगर महिला स्नान घर के सहारे सहारे चलते हुए साकेत नगर मकान नं. 3/20 रामनिवास गौड के मकान तक वहाँ से पश्चिम मुड़ कर 3/25 चन्द्रप्रकाश शर्मा के मकान के सामने वाली गली (दक्षिण) में चल कर जैन मन्दिर वाली गली 3/21 के मकान को शामिल करते हुए 3/122 तक जी.सी. डागरा के मकान से उत्तर पश्चिम मुड़कर उत्तरी भाग को लेते हुए (मकान नं. 3/126 के सामने वाली गली में मुड़कर) मकान नं. 3/165 राजकुमार सिंघल को शामिल कर आगे चलते हुए सार्वजनिक पार्क व शिव मन्दिर को शामिल करते हुए मकान नं. 3/256 मुरली भाटीया के मकान तक यहाँ से पश्चिम में मुड़कर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए 3/274 टोपनदास खत्री के मकान से आगे चल कर 3/49 मेघराज मुलचन्दानी के मकान तक वहाँ से उत्तर गली में मुड़कर गली के पूर्वी भाग को लेकर मकान नं. 1/57 मुधुलता शर्मा (निहार कन्फेन्शनरी) तक वहाँ से सामने गली में पश्चिम मुड़कर सड़क के उत्तरी भाग को लेते हुए शीतला माता मन्दिर तक यहाँ से उत्तर मुड़कर 1/182 अ प्रकाश हरचन्दानी की किराए कि दुकान तक यहाँ से पश्चिम मुड़कर गली के उत्तरी भाग को लेकर मकान न. 1/57 ओम राठोड के मकान तक यहाँ से उत्तर मुड़ कर गली के पूर्वी भाग को लेते हुए मकान. न. 1/170 दिनेश चन्द अग्रवाल के मकान तक वहाँ से पश्चिम मुड़कर गली के उत्तरी भाग मकान नं. 1/27 ताराचन्द चोरोटिया के मकान के सहारे—सहारे मकान नं. 1/47 शंकरलाल पारीक के मकान तक (मैन गणेशपुरा रोड तक) वहाँ से उत्तर मुड़कर सड़क का पूर्वी भाग शामिल करते हुए मकान नं. 1/1 (पानी के केम्पर वाला)</p>

	राजू गोयर (हरिजन) के मकान के सहारे-सहारे रॉटरी कल्ब भवन को शामिल करते हुए पुनः उदयपुर रोड (पृथ्वीराज चौहान मार्ग) ब्रह्मानन्द धाम चौराये पर श्री विनोद मुकुट द्रस्ट तक। (साकेत नगर सेक्टर नं. 1 आंशिक, सेक्टर नं. 2, 4 व सेक्टर नं. 3 आंशिक)
44	महाराणा प्रताप मार्ग चक्कर रोड पर बालाजी मंदिर (पुराना चुंगी नाका) से उत्तर दिशा में चलते हुए सड़क के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए आसरवा निवास एवं कब्रिस्तान, सेन्टपोल स्कूल से शान्तिलाल श्रीश्रीमाल के मकान के सहारे-सहारे लोकाशाह नगर को शामिल कर आगे जवाहर निकेतन मेवाड़ी गेट के पास कब्रिस्तान के सहारे-सहारे महाराणा प्रताप सर्कल तक यहां से पश्चिम में ब्रह्मानन्द मार्ग पर माजीसा रेस्टोरेन्ट को शामिल कर दक्षिणी भाग को लेते हुए बाबारामदेव मंदिर एवं पीछे कब्रिस्तान (सैयद पीरशाह बाबा) पश्चिम से मुड़कर देव एन्टरप्राइजेज को शामिल कर राजकीय उ०प्र० विधालय नवीन (मेवाड़ी गेट) को शामिल कर निहालचन्द लोढ़ा मकान नं. 481 लोकाशाह नगर, पन्ना कोलोनी से आगे चलकर जवाहर भवन तक यहां से न्यू वृन्दावन गार्डन को शामिल करके सुवालाल भाटी के कुएं से मुख्य सड़क उदयपुर रोड तक यहां से पूर्व दिशा में मुड़कर उत्तरी भाग आशापुरा माता मंदिर को शामिल कर पुनः चक्कर रोड पर बालाजी मंदिर (पुराना चुंगी नाका) तक। (लोकाशाह नगर, पन्ना कोलोनी, सुवालाल भाटी कोलोनी, आसरवा कोलोनी आदि)
45	उदयपुर रोड (पृथ्वीराज चौहान मार्ग) पर डॉ० अनिता शर्मा के निर्माणाधीन अस्पताल से दक्षिणी पूर्व की ओर चलते हुए दक्षिणी पश्चिमी भाग को लेते हुए छलाणी की बगीची को चलते हुए रावण दहन स्थल के पीछे की दीवार तक (चक्कर रोड के कोने तक) वहां से दक्षिण में मुड़कर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए सैन सर्किल को शामिल करते हुए प्रेरणा गार्डन से गुरुकुल स्कूल होते हुए गणेशभाई कबाड़ी के गोदाम के आगे आदित्य ग्राइण्डिंग मिल चौराहे से पश्चिम में मुड़कर उत्तरी भाग को लेते हुए आदित्य ग्राइण्डिंग मिल के सहारे-सहारे चन्द्रभान पवार (जे. बी चौहान कोलोनी) के मकान को शामिल करते हुए सुगनचन्द हलवाई के मकान से उत्तर की ओर मुड़ते हुए पूर्वी भाग को शामिल करते हुए आई.ओ.सी लाईन को कोस करके कच्चे रास्ते चलते हुए अशोक जी अरोड़ा के मकान को शामिल करते हुए ज्ञानसिंह पवार (चौधरी कोलोनी) के मकान को शामिल करते हुए डॉ० एस.एल. चौधरी के मकान के चौराहे तक यहां से उत्तर चलकर हाउसिंग बोर्ड की दीवार के सहारे-सहारे मकान नं. 3/380 तक यहां से हाउसिंग बोर्ड की दीवार के सहारे-सहारे मकान नं. 1/264 दुर्गादास सैन के मकान से पुखराज बागड़ी के मकान तक वहां से हाउसिंग बोर्ड सीमा के सहारे समस्त मकान 1/239 सरलाबेन के मकान को शामिल कर 1/235 मोतीसिंह चौहान के मकान मैन गणेशपुरा रोड तक यहा से उत्तर मुड़कर मकान नं. 1/48 के सहारे-सहारे सड़क के पूर्वी भाग को लेकर मकान नं. 1/67 किशनसिंह चौहान के मकान तक वहां से पूर्व मुड़कर सड़क के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए मकान नं. 1/102 पारसमल राठौड़ के मकान तक यहां से दक्षिण मुड़कर गली के पश्चिमी भाग को लेकर जाग्रती सेकेण्डरी स्कूल राहुल पारीक मकान नं. 1/203, 204 तक वहां से पूर्व मुड़कर मकान नं. 1/208 तक यहां से दक्षिण मुड़कर गली के पश्चिम भाग को लेकर मकान नं. 1/269 सुनील कुमार रांका के मकान तक यहां से पूर्व मुड़कर मकान नं. 1/276 दामोदर सिसोदिया के मकान तक वहां से दक्षिण मुड़कर सड़क के पश्चिमी भाग को लेकर कमल सिंह चौहान के मकान तक वहां से पूर्व मुड़कर सड़क के दक्षिणी भाग को लेकर मकान नं. 3/379 तक यहां से मनोज रांका के मकान के सहारे-सहारे हाउसिंग बोर्ड के मकान नं. 3/372 उमाशंकर माथुर के मकान के सहारे-सहारे कालूसिंह जी कुमावत के सामने गली में उत्तर में मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए 3/375 रामसिंह के मकान से 3/29 नितिन खन्ना के मकान तक वहां से पूर्व मुड़कर दक्षिणी भाग को लेते हुए 3/332 राजेन्द्र शर्मा के मकान से 3/336 के मकान तक वहां से पूर्व मुड़कर दक्षिणी भाग को लेते हुए युगल किराणा जनरल स्टोर तक वहां से उत्तर मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए प्रोफेसर एल. एम दोयम के मकान के सहारे-सहारे शारदा पब्लिक स्कूल को शामिल करते हुए जनता कॉटन जिनिंग फैक्रट्री को शामिल करते हुए पुनः उदयपुर रोड (पृथ्वीराज चौहान मार्ग) पर डॉ० अनिता शर्मा के निर्माणाधीन अस्पताल तक। (जे.बी चौहान कोलोनी आंशिक, चौधरी कोलोनी, साकेत नगर सेक्टर नं. 1 व 3 आंशिक आदि)

46	<p>उदयपुर रोड (पृथ्वीराज चौहान मार्ग) पर आदित्य ग्राइडिंग मिल के चौराहे से पश्चिम मुड़कर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए पूर्व चन्देल के मकान से भगवानसिंह रावत के मकान से धन्नासिंह रावत मकान नं. 68 जवाहर नगर किशनसिंह रावत के मकान होते हुए राजकीय आई.टी.आई के तिहारे तक वहां से दक्षिण मुड़कर पूर्वी भाग को लेते हुए बालविकास परियोजना कार्यालय, आगनबाड़ी कार्यालय से एकलव्य अकेडमी, के.एम. चूना फैक्ट्री उदयपुर रोड तिराहे से उत्तर चलकर रमेश शर्मा का पेटोल पम्प को लेकर उदयपुर रोड तक यहां अण्डरपास को पार कर 250 मीटर तक नेशनल हाईवे के समानान्तर एरिया (नगर परिषद सीमा) लेकर उत्तर दिशा में चलकर पश्चिमी भाग को लेते हुए विजयनगर रोड तक यहां से उत्तर चलकर सेन्ट्रल जेल, खेल स्टेडियम के सहारे—सहारे विजयनगर रोड अण्डर बाईपास को पार कर पश्चिम की तरफ मुड़कर दक्षिण की ओर रोड के सहारे—सहारे चलते हुए न्यू राजपूताना रेस्टोरेन्ट से पश्चिम चलकर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए कच्चे रास्ते से एफ.सी.आई के गोदाम (केन्द्रीय भण्डारण निगम) से बिजली के पोल के सहारे कच्ची सड़क चलते हुए आई.ओ.सी लाईन के सहारे कच्चे रास्ते होते हुए गुरुकुल नगर प्रथम व द्वितीय को शामिल करते हुए उदयपुर रोड मुख्य सड़क तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर पुनः उदयपुर रोड (पृथ्वीराज चौहान मार्ग) पर आदित्य ग्राइडिंग मिल के चौराहे तक। (जे.बी. चौहान कोलोनी आंशिक आदि)</p>
47	<p>विजयनगर रोड (सावित्री बाई फूले मार्ग) सेदरिया तिराहे से दक्षिण ओर चलते हुए राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र (डिस्पेन्सरी) से पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए गुरुदीप एकेडमी स्कूल को सम्मिलित करते हुए पूर्व पार्षद गणपतसिंह मुग्धेश के मकान तक यहां से (अण्डर पास से पहले) दक्षिण पश्चिम में मुड़कर हाईवे के सहारे—सहारे चलकर उत्तर पश्चिम के भाग को लेते हुए एस.आर. फार्म हाउस के सहारे—सहारे कोल्ड फैक्ट्री को शामिल करते हुए चमड़ा घर को शामिल कर न्यू राजपूताना वेज एण्ड नोनवेज होटल को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर कच्ची सड़क के पूर्वी भाग को लेते हुए (एफ.सी.आई गोदाम के सामने वाला हिस्सा) नवरत्न फार्म हाउस तक वहां उत्तर पूर्व मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए ओकाश्वर महादेव गार्डन होते हुए कृषि उपज मण्डी तक यहां से चक्कर रोड पार कर अमरी का बाड़िया के मकानों को शामिल कर (कब्रिस्तान की दीवार के सामने स्थित) नाले तक यहां से पूर्व मुड़कर नाले की दीवार के सहारे—सहारे चलकर पारसमल तेली के कुएं को शामिल करते हुए कच्ची सड़क पर पूर्वी दिशा में चलते हुए दक्षिणी दिशा में शान्तिलाल साहू के मकान तक यहां से आगे चलकर पुनः दक्षिणी पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए बंजरग निवास तक यहां से सामने वाली सड़क पर चलकर खेत की दीवार के सहारे—सहारे चलकर तिलोक जी धावा के मकान तक यहां से दक्षिणी पश्चिमी भाग को लेते हुए गुजरिया परिवार को शामिल कर कच्चे रास्ते होते हुए शिवप्रकाश सामरिया कबाड़ी के गोदाम तक यहां से पूर्व में मुड़कर कच्चे रास्ते होते हुए दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए हनुमान मंदिर को शामिल कर सेदरिया रोड मुख्य सड़क तक वहां से पूर्व मुड़कर दक्षिणी भाग को लेते हुए रणजीत सिंह दावत का मकान एवं राशन की दुकान नं. 59 को शामिल करते हुए विजयनगर रोड (सावित्री बाई फूले मार्ग) सेदरिया तिराहे पर राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र (डिस्पेन्सरी) तक। (पार्श्वनाथ कोलोनी, अमरी का बाड़िया)</p>
48	<p>विजयनगर रोड (सावित्री बाई फूले मार्ग) तिराहे पर (माहेश्वरी पंचायती बगीची के सामने रास्ते) भोमसिंह पुत्र हिरासिंह के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिण भाग को लेते हुए खेत की दीवार के सहारे—सहारे एम.एस बर्टन स्टोर से किशन चन्देल ललित किशोर (एल.आई.सी वाले) के मकान से आगे चलकर पीपल के पेड तक वहां से पश्चिम में मुड़कर दक्षिणी भाग को लेते हुए सुरेन्द्र जी आटा की चक्की होते हुए नाले से बिचड़ली तालाब को जाने वाली पुलिया होते हुए नितिन तोषनिवाल के मकान से चलकर लादूराम प्रजापत के मकान होते हुए भगवती टेन्ट हाउस (सब्जी मण्डी की सड़क) तक वहां से दक्षिण मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए प्रकाश जी नाहार अरिहन्त हेण्डलूम के मकान को शामिल करते हुए शिवबाड़ी के सहारे—सहारे सुरेश चन्द मंगल के मकान के आगे नाले तक वहां से पूर्व मुड़कर नाले के सहारे—सहारे उत्तरी</p>

	<p>भाग को शामिल करते हुए मरुधर केसरी नगर कोलोनी को शामिल करते हुए विमल जी लोडा के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुड़ते हुए उत्तरी भाग को शामिल कर पुष्पा शर्मा पत्नि दिनेश शर्मा (हरि चेतना विला) के मकान होते हुए प्रकाशजी जैन के मकान तक वहां से दक्षिण में मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए जवरीलाल जागंडा के मकान तक वहां से पूर्व मुड़कर उत्तरी भाग को लेते हुए हरिश चन्द्र पुत्र संजय कुमार नाहर के मकान होते हुए रतनजी किरार के मकान होते हुए सड़क तक वहां से दक्षिण मुड़कर खेत की दीवार के सहारे—सहारे पूर्वी भाग को लेते हुए मानसिंह खातियो का बेरा व मालियो के बेरे को शामिल करते हुए कच्चे रास्ते से (सामरिया कबाडी गोदाम के पीछे की दीवार से) पूर्व चलकर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए गोविन्दजी तेली के मकान होते हुए (सेदरिया रोड पर) पुराना तेजाजी मंदिर तक (स्टेज) वहां से पूर्व मुड़कर उत्तरी भाग को लेते हुए सेदरिया स्कूल तिराहे तक यहां से दक्षिण की ओर मुड़कर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए शहनाज टेन्ट हाउस के सहारे चलते हुए अफसाना फर्नीचर एवं वेलिंग, ईरानी टी स्टॉल को शामिल कर अण्डर बाईपास तक यहां से 250 मीटर परिषद सीमा तक यहां से उत्तर पूर्व मुड़कर उत्तर पश्चिमी भाग को लम्बवत समानान्तर चलते हुए न्यू रिको कार्यालय तक यहां से पश्चिम में मुड़कर हाईवे को कोस कर संगम विहार कोलोनी से आगे कुशलपुरा कच्ची सड़क पर चलते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए पिण्डयार कृषि फार्म तृतीय को सम्मिलित कर आगे चलते हुए रमेश काठात के मकान तक (अरिहन्त कोलोनी) यहां से अलादीन काठात (JEN) के मकान को शामिल कर विजयनगर रोड (सावित्री बाई फूले मार्ग) मुख्य सड़क पर ताराचन्द साहू के मकान तक यहां से उत्तर की ओर मुड़कर सड़क को कोस कर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए बातरा राठौड़ (साहू समाज भवन से) आगे चलकर (कुत्तो के नोहरे के सामने) दर्शन कार्गो हाउस होते हुए मिर्ची फैक्ट्री होते हुए पुनः विजयनगर रोड (सावित्री बाई फूले मार्ग) माहेश्वरी पंचायत बगीची के तिराहे के सामने भोमसिंह पुत्र हिरासिंह के मकान तक। (सूरज कोलोनी, अर्चना कोलोनी, पार्श्वनाथ कोलोनी, संगम विहार कोलोनी, अरिहन्त कोलोनी)</p>
49	<p>मेवाड़ी गेट (महाराणा प्रताप मार्ग) बाहर फल (सब्जी मण्डी) से उत्तर दिशा में चलकर पश्चिमी भाग लेकर सूरज भवन से गणाधीश वाटिका, श्रीराम टॉवर, गाडोतिया लोहार बस्ती शामिल कर आगे मेवाड़ी गेट के परकोटे (शहर पनाह) के सहारे—सहारे दक्षिणी पूर्वी भाग (तालाब की तरफ) के हिस्से को शामिल करते हुए तालाब की पाल तक (सुभाष उद्यान गेट न. 1 की ओर) वहां से पूर्व की ओर पाल के सहारे—सहारे चलकर तालाब को सम्मिलित करते हुए (सुभाष उद्यान सम्मिलित नहीं) तालाब की रपट तक वहां से दक्षिण मुड़कर विजयनगर रोड (देव नारायण मार्ग) पर बह्याण स्वर्णकार पंचायत सभा भवन तक यहां से भवन की दीवार के सहारे—सहारे कच्ची सड़क पर पश्चिम में मुड़कर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए नोरत खटिक के मकान तक एवं आगे सूरज कोलोनी, शिव मंदिर की ओर चलते हुए रामजी लाल माली (सूरज कोलोनी) के मकान तक यहां से पश्चिम में मुड़कर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए प्रताप कोलोनी के नाले को कोस कर आगे चलते हुए प्रताप कोलोनी की राजकीय प्राथमिक विधालय से हरिराम प्रजापत के मकान होते हुए लोकाशाह नगर की मुख्य सड़क तक यहां से उत्तर की ओर मुड़ पुनः मेवाड़ी गेट (महाराणा प्रताप मार्ग) बाहर फल (सब्जी मण्डी) तक। (सूरज कोलोनी, प्रताप कोलोनी, जैन कोलोनी, कडिवाल मोहल्ला आदि)</p>
50	<p>विजयनगर रोड (सावित्री बाई फूले मार्ग) दादाबाड़ी से पूर्व में बलाड़ रोड (बाबा बर्फनी मार्ग) की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए बर्फनी बाबा मंदिर को शामिल करते हुए (शिवकृपा सदन) रमेश चन्द्र बंसल के मकान से आगे चलते हुए दिनेश कुमार विश्वनाथ के मकान तक यहां से आई.ओ.सी की पाईप लाईन के पीलर तक यहां से उत्तर मुड़कर आई.ओ.सी पाईप लाईन के सहारे—सहारे बलाड़ से आने वाली नहर तक यहां से पश्चिम मुड़कर नहर के सहारे—सहारे दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए शमशान घाट भैरूजी के मंदिर तक यहां से उत्तर मुड़कर नदी के सहारे—सहारे पश्चिमी भाग को लेते हुए शिव मंदिर, लोहिया जी की बगीची को शामिल करते हुए पुराना मसूदा रोड की पुलिया तक यहां से पश्चिम मुड़कर गोकुल श्याम माली पुत्र राधेश्याम के नोहरे तक यहां से आगे चलकर पूर्व पार्षद राधेश्याम जीनगर के</p>

	<p>मकान (ए.टी.एम) तक यहां से पश्चिम की ओर चलकर लोहार बस्ती डूंगरसिंह सांखला का मकान, सुभाष उद्यान गेट नं. 2, केलीदेवी सांखला प्राथमिक स्कूल तक वहां से दक्षिण मुडकर परकोटे की दीवार के सहारे—सहारे सुभाष उद्यान गेट नं. 1 तक वहां से तालाब की पाल तक वहां से तालाब की पाल के सहारे—सहारे (सुभाष उद्यान सम्पूर्ण सम्मिलित) तालाब की रपट तक विजयनगर रोड तक वहां से विजयनगर रोड (सावित्री बाई फूले मार्ग) कोस करके पुनः विजयनगर रोड (सावित्री बाई फूले मार्ग) दादाबाड़ी तक।          (शान्ति नगर, केशव नगर, जगदीश नगर, चौहान कोलोनी आदि)</p>
51	<p>विजयनगर रोड (सावित्री बाई फूले मार्ग) तिराहे से दक्षिण चलकर माहेश्वरी पंचायत बगीची के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए कुत्ते के नोहरे के सहारे चलकर डी.पी.एस स्कूल तक वहां से दक्षिण पूर्व की ओर मुडते हुए 11 केवी लाईन के नीचे छोटे टॉवरो के सहारे स्थित कच्चे रास्ते के उत्तरी पूर्वी भाग को लेते हुए जितेन्द्र सिंह चौहान के मकान से सहारे चलते हुए कमरुदीन काठात के मकान को शामिल करते हुए साहू पीडियार कृषि फार्म के सहारे—सहारे हाईवे को कोस करके 250 मीटर लमवत समानान्तर दूरी रखते हुए वहां से उत्तर मुडकर कारगिल शहिद मोहन काठाद के पेट्रोल पम्प होते हुए न्यू आर.टी.ओ ऑफिस को शामिल करते हुए बलाड नहर की पुलिया से पश्चिम मुडकर नदी के सहारे—सहारे आई.ओ.सी पाईप लाईन के पीलर से दक्षिण मुडकर आई.ओ.सी पाईप लाईन के सहारे—सहारे पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए बलाड रोड सडक तक वहां से पश्चिम में मुडकर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए कनेश्वरी माताजी के मंदिर के सहारे—सहारे कंचन बाल विध्या स्कूल होते हुए पुनः विजयनगर रोड (सावित्री बाई फूले मार्ग) तिराहे पर माहेश्वरी पंचायत बगीची तक।          (सुरेश नगर द्वितीय, श्रीनाथ कोलोनी आदि)</p>
52	<p>पुराना मसूदा रोड चौराहे (चुंगी नाका) पर स्थित श्री शक्ति एन्टरप्राईजेज अजीतसिंह राठौड़ के ऑफिस से पश्चिम दिशा में चलते हुए सडक के दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए गजानन्द स्टोन, प्रभुनिवास पुराना मसूदा रोड पुलिया तक (श्री राम रोड लाईन्स) तथा यहां से दक्षिण मुडकर नदी के सहारे—सहारे पूर्व की ओर चलते हुए नदी के उत्तरी भाग में स्थित समस्त मकान व कॉलोनियों को शामिल करते हुए (सातो बाईसा का मंदिर) मॉ अन्नपूर्णा नगर विस्तार कोलोनी के समस्त मकान को लेते हुए नदी के सहारे उत्तरी पूर्वी दिशा में चलते हुए धूलाजी जाट के कुएं को शामिल करते हुए बाईपास पर बलाड से आने वाली नहर पर निर्मित पुलिया से बाईपास कोस करके उत्तर की ओर मुडकर 250 मीटर लमवत समानान्तर दूरी रखते हुए वापस पश्चिम दिशा में मुडकर संजू ट्रेवल्स होते हुए गढ़ीथोरियान हाउससिंग बोर्ड को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए बाबाराम देव व तेजाजी के मंदिर होते हुए गजानन्द स्टोन सप्लायर्स को शामिल करते हुए हाउससिंग बोर्ड के तिराहे से उत्तर मुडकर ३० जी.के श्रीवास्तवा मकान नं. 3/69 अवधिविला से 3/65 जी.के.एल शर्मा के मकान तक वहां से पश्चिम मुडकर कच्चे रास्ते होते हुए रामेश अपार्टमेंट तक वहां से उत्तर चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए तेजमल जी सांखला के मकान तक वहां से मसूदा रोड की मुख्य सडक तक वहां से पश्चिम चलते हुए पुराना मसूदा रोड चुंगीनाका तक।          (मॉ अन्नपूर्णा विस्तार नगर, हाउसिंग बोर्ड आंशिक आदि)</p>
53	<p>मसूदा रोड (स्वामी ज्ञानस्वरूप मार्ग) पर गोपाल नगर के कोने से दक्षिण में मुडकर मोतीसिंह सांखला के बाडे व मकान होते हुए पूर्वी भाग को शामिल करते हुए कच्चे रास्ते होते हुए पूर्व में मुडकर हाउसिंग बोर्ड मकान नं. 3/65 ए (पूर्वी भाग का सम्पूर्ण हिस्सा) से दक्षिण में चलकर श्रीमती मंजू मोहन मेघवाल 3/76 के मकान तक वहां से पूर्व मुडकर गढ़ीथोरियान को जाने वाले रास्ते से सडक के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए बाईपास को कोस करके 250 मीटर तक चलकर वहां से उत्तर मुडकर बाईपास के 250 मीटर लम्बद्व समानान्तर चलते हुए वहां से वापस पश्चिम मुडकर मसूदा रोड अण्डर बाईपास होते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए पूनमचन्द माली के मकान के सहारे—सहारे सावलिया सेठ मिष्ठान भण्डार (देवडा निवास) को लेते हुए पुनः मसूदा रोड (स्वामी ज्ञानस्वरूप मार्ग) पर गोपाल नगर को जाने वाली सडक से मोतीसिंह सांखला के बाड़ा तक।          (गोपाल नगर, बाकोलिया कोलोनी, गढ़ीथोरियान हाउसिंग बोर्ड आदि)</p>

54	<p>अजमेर रोड सतपुलिया (महात्मा ज्योतिबा फूले तिराहा) पर केसरी नन्दन गार्डन से पूर्व की ओर मुड़ते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए शिवमंदिर को शामिल करते हुए सोलंकी डीजल सर्विस होते हुए कंजर बस्ती को शामिल करते हुए पार्वती जाग्रत के मकान को शामिल करते हुए मोहनलाल भाटी के मकान तक वहां से दक्षिण में मुड़कर सड़क के पश्चिमी भाग को लेते हुए श्रवण जी सांखला के मकान को शामिल करते हुए रमेश बंसल के मकान से आगे चलते हुए प्रहलाद जी अग्रवाल के मकान तक वहां से पश्चिम में मुड़कर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए पुरुषोत्तम बंसल के मकान होते हुए (रविदत्त आर्य नगर) मेने मसूदा रोड (महात्मा ज्योतिबा मार्ग) को कोस करके दक्षिणी पश्चिमी दिशा में गौशाला की दीवार/पक्का नाला के सहारे—सहारे चलते हुए दक्षिणी दिशा में गौशाला की जमीन की पंचशील की दीवार को शामिल करते हुए पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए दक्षिणी दिशा में अमित कुमार शर्मा के मकान तक वहां से रमेश गहलोत के मकान होते हुए मोहनलाल माली के मकान तक वहां से पश्चिम मुड़कर सड़क के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए महावीर होजरी होते हुए नदी तक वहां से उत्तर दिशा में चलते हुए मारोठिया की पुलिया से नदी के सहारे—सहारे रोडवेज बस स्टेप्प के पीछे होते हुए सतपुलिया होते हुए पुनः अजमेर रोड पर सतपुलिया रोड (महात्मा ज्योतिबा फूले तिराहा) पर केसरी नन्दन गार्डन तक।</p> <p>(मानगंज, गाडोतिया लोहार बस्ती, रविदत्त आर्य नगर, नसिया मार्ग, बाकेविहारी मार्ग आदि)</p>
55	<p>देलवाडा रोड पर किशनलाल भाटी (धोबी) के मकान से दक्षिण में चलकर पपीया गार्डन के सहारे—सहारे सड़क के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए किशन सिंह गौड के मकान तक वहां से पश्चिम मुड़कर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए (समस्त कोलोनी के मकान) यश एन्टरपाईजेज फैक्ट्री तक यहां से मसूदा रोड (रविदत्त आर्य मार्ग) की सड़क को कोस करके गौशाला की दीवार के सहारे—सहारे पूर्वी भाग को लेते हुए सत्यप्रकाश चौधरी का मकान (जो कि बसन्त कोलोनी के गली नं. 2 में है) वहां से सीधे चलते हुए लक्ष्मीबाई पत्नि छोटूलाल के मकान (दक्षिणी पश्चिमी भाग लेते हुए) वहां से उत्तर चलकर पुराने चुंगीनाके के तिराहे तक (आयुर्वेद जंगल) होते हुए वहां से उत्तर की ओर होते हुए रमेश जी दगदी का खाली नोहरे के सामने हरदेव जी सांखला के मकान से पूर्व की ओर मुड़ते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए भंवरलाल सैनी के मकान तक वहां से उत्तर पूर्व दिशा में 11 केवी लाईन के नीचे—नीचे चलते हुए उत्तर पश्चिम भाग के समस्त मकानों को शामिल करते हुए सावरलिया सेठ मंदिर तक वहां से करणी गार्डन (अजीत सिंह चादारूण) के सहारे—सहारे आर.एस. राठौड़ के मकान होते हुए भागचन्द चौधरी के मकान तक वहां से उत्तर में मुड़कर पश्चिमी भाग के समस्त मकान को शामिल करते हुए पार्वत जाग्रत के मकान को लेते हुए नेमीचन्द जागिड के मकान के सहारे—सहारे कृष्णा जनरल स्टोर होते हुए देलवाडा रोड मुख्य सड़क तक वहां से पश्चिम मुड़कर दक्षिणी भाग को लेते हुए तेजाजी के थान होते हुए किशनलाल भाटी (धोबी) के मकान तक।</p> <p>(हुसैन कोलोनी आंशिक, जनता कोलोनी, अभिषेक नगर आदि)</p>
56	<p>कंचन श्री मारुति मोटर्स देलवाडा रोड (वीर तेजाजी मार्ग) (हीरानगर देलवाडा लिंक रोड के नुकड़ पर स्थित) से दक्षिण चलकर हीरानगर लिंक रोड के पूर्वी भाग में स्थित समस्त मकान, कोलोनी को लेते हुए नोरत घ्वाला के मकान तक दक्षिण दिशा में सड़क पर लगातार चलते हुए सड़क के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए एलफोन अर्नेनस्ट मकान नं. 4 शखेश्वर कोलोनी के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण में स्थित गली में मुड़कर (श्री ओमप्रकाश चौधरी मकान नं. 38 ऋषभ कानोनी के मकान) गली के पूर्वी भाग को लेते हुए अनुराग गुप्ता मकान नं. 11 अभिषेक नगर सांवरिया सेठ मंदिर वाली गली के सामने का भाग 11 के वी की विद्युत लाईन के नीचे शाहबुद्दीन के मकान हुसैन कोलोनी, मदरसा फैजाने इमाम हुसैन को शामिल कर दक्षिण में लगातार चलते हुए मिठूला, हेमराज लोधा आर्य कोलोनी बी में नुकड़ पर स्थित मकान तक तथा वहां से पश्चिम मुड़कर गली का दक्षिणी भाग के समस्त मकान लेते हुए मुख्य मसूदा रोड गौशाला मार्ग तक स्थित लादूराम जागिड आर्य कोलोनी ‘बी’ के मकान तक तथा वहां से दक्षिण पूर्व मुड़कर प्रभूकी बगिया (संत रविदास सर्किल) तक तथा वहां से पूर्व मुड़कर मुख्य मसूदा रोड चलते हुए मयूर बेकरी को शामिल करते हुए सिरकार कोलोनी मिट्टूभाई</p>

	<p>काठात (एम.के. ऑटो मोबाईल्स) के मकान/दुकान तक वहां से उत्तर मुडकर गली के उत्तर मुडकर गली के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए महेन्द्र प्रजापति एडवोकेट के मकान के सहारे-सहारे कच्ची सड़क हाईटेन्शन लाईन शमशान घाट को शामिल करते हुए (कंजर समाज) शिव मंदिर (पूनमचन्द्र गहलोत, रणथम्भौर कोलोनी) हाईटेन्शन लाईन के नीचे कच्चे रास्ते होते हुए ब्यावर रेजीडेन्सी के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक वहां से देलवाडा रोड (वीर तेजाजी मार्ग) के पश्चिम दिशा में मुडकर कोहिनूर मार्बल की लाईन को शामिल करते हुए पुनः कंचन श्री मारुति सर्विस सेन्टर तक (हीरा नगर देलवाडा लिंक रोड) (शंखेश्वर कोलोनी, हुसैन कोलोनी आंशिक, सिरकार कोलोनी, आर्य नगर, हीरानगर आंशिक, शिव कोलोनी आदि)</p>
57	<p>देलवाडा रोड (वीर तेजाजी मार्ग) ब्यावर रेजीडेन्सी को शामिल करते हुए पूर्व की ओर देलवाडा रोड अण्डरपास तक तथा वहां से दक्षिण मुडकर मसूदा रोड अण्डर पास तक (एन.एच. 58 के समानान्तर 250 मीटर की दूरी अर्थात डेयरी का अंतिम छोर से गोपालसिंह रावत ठेकेदार के मकान गुलाब नगर तक) तथा मसूदा रोड अण्डर पास से पश्चिम मुडकर मसूदा रोड उत्तरी भाग को लेते हुए ओमप्रकाश भट्ट के मकान, महादेव किराणा एवं जनरल स्टोर, शिव मंदिर रेगरान पंचायत भवन इन्द्रा नगर लादूसिंह रावत के मकान तक वहां से उत्तरी दिशा में गली में मुडकर गली के पूर्वी भाग को लेते हुए खटनाल भवन, आनन्द काठात के मकान होते हुए समदा भोपा के मकान से हाईटेन्शन लाईन के नीचे-नीचे पूर्वी भाग को शामिल करते हुए (कंजर समाज के शमशान घाट के सामने स्थित कच्ची सड़क के पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए पुनः ब्यावर रेजीडेन्सी देलवाडा रोड (वीर तेजाजी मार्ग) तक। (पटेल नगर, इन्द्रा नगर आंशिक आदि )</p>
58	<p>ज्योतिबाबा फूले सर्कल भगत पान भण्डार से उत्तर दिशा में चलकर अजमेर रोड (सोमेश्वर मार्ग) आदर्श नगर गली नं. 2 के दक्षिणी कोने में स्थित रामलाल दिया (दिया कुंज) के भवन तक वहां से पूर्वी दिशा में चलकर सड़क के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए रामेश्वर भवन (रामकिशोर शर्मा) के मकान तक वहां से दक्षिण पूर्वी दिशा में मुडकर सड़क के पश्चिमी भाग को लेते हुए गहलोत के मकान के सामने ज्ञानविहार कोलोनी में स्थित सड़क से मुडकर सड़क के पश्चिम मुडकर सड़क के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए आस्था पब्लिक स्कूल राधाकुंज गार्डन होते हुए पुनः ज्योतिबाबा फूले सर्कल भगत पान भण्डार तक। (आदर्श नगर गली नं. 2 आंशिक, ज्ञानविहार कोलोनी, अग्रसेन नगर आदि)</p>
59	<p>अजमेर रोड पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग (सोमेश्वर मार्ग) आदर्श नगर गली नं. 2 मयूर मेडिकल से पूर्व चलकर सड़क के उत्तरी भाग को लेते हुए डॉ प्रमोद पोरवाल का मकान शामिल कर नीलकण्ठ भवन, गलेम्ब ब्यूटी पार्लर होते हुए गली के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए तरुण शर्मा के मकान तक वहां से दक्षिणी पूर्वी दिशा में सड़क के सहारे-सहारे गहलोत भवन के सामने ज्ञानविहार कोलोनी को जाने वाले सड़क के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए देलवाडा रोड (वीर तेजाजी मार्ग) के मुख्य सड़क तक वहां से पूर्व मुडकर मेहरात टेन्ट हाउस तक वहां से उत्तर मुडकर सड़क पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए हाईटेन्शन लाईन के नीचे चलते हुए विनोद कुमार आदरा पुत्र अर्जुन मेघवाल के मकान को शामिल कर, विजय कुमार गर्ग कृष्णाविला, महर्षि दयानन्द कोलोनी, बी.एल शर्मा के मकान से हाईटेन्शन लाईन के नीचे टॉवर के पास प्रेम शर्मा के मकान होते हुए गायत्री नगर की मुख्य सड़क तक यहां से पश्चिम मुडकर सड़क के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए राशी ब्यूटी पार्लर से बी.एल कुर्डिया के मकान होते हुए श्रेयांस स्टील फेकट्री होते हुए के.एच संस अजमेर रोड मुख्य सड़क तक पुनः दक्षिण मुडकर अजमेर रोड की मुख्य सड़क के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए पुनः अजमेर रोड पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग (सोमेश्वर मार्ग) आदर्श नगर गली नं. 02 मयूर मेडिकल तक। (आदर्श नगर गली नं. 2 आंशिक, ज्ञानविहार कोलोनी, माहेश्वरी दयानन्द कोलोनी, गायत्री नगर आंशिक आदि)</p>
60	अजमेर रोड (पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग) मेवाडा डाईग फेकट्री से गायत्री नगर में जाने वाली

सड़क के उत्तरी भाग को शामिल करते हुए केशव नयन गार्डन धर्मा कौलोनी आर्य भट्ट अकेडमी पानी की टंकी अग्रवाल ईलेक्ट्रोनिक्स, मामाजी की दुकान होते हुए हाईट्रेन्शन लाईन के नीचे कच्चे रास्ते होते हुए साईड के पूर्वी भाग के मकान सुनील मुन्दडा का मकान मनीष तर्क के मकान से पुरुषोत्तम के मकान से जी.आर माईनिंग से जोगेश्वर महादेव मंदिर व माताजी के मंदिर के पीछे की दिवार हाईट्रेन्शन लाईन होते हुए सड़क के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए मेहरात टेन्ट हाउस के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक यहां से पूर्व दिशा में मुड़कर राजकीय सनातन धर्म उ.मा.विधालय एवं कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी व देलवाडा अण्डर पास से 200 मीटर की सीमा लेकर वहां से उत्तर मुड़कर ईटो का भट्टा, कृष्णा रोड लाईन्स मिश्रीपुरा के मकान, राम ईट उधोग, रानीबाई रिसोर्ट कमल पेट्रोल पम्प, शेखावत मोटर्स गैरिज (250 मीटर समानान्तर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 का पूर्वी भाग) से पश्चिम की तरफ मुड़कर ब्यावर खास को जाने वाले तिराहे तक वहां से दक्षिण दिशा में मुड़कर अजमेर रोड (पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग) के पूर्वी भाग में चौधरी धर्मकांटा, पानी की टंकी, कृषि विभाग कार्यालय, बजरबटू मार्केट, कौशल्या गार्डन, सेन्ट्रल अकेडमी होते हुए पुनः मेवाडा डाईग फैक्ट्री तक।  
(दौलतगढ़ सिंधा, गायत्री नगर आंशिक, धर्मा कौलोनी, गोलचा नगर आदि)

आयुक्त,  
नगर परिषद, ब्यावर।

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**